



वर्ष-28 अंक : 334 (हैदराबाद, निजामाबाद, विशाखापट्टणम, तिरुपति से प्रकाशित) माघ शु.12 2080 बुधवार, 21 फरवरी-2024

THE LARGEST CIRCULATED AND READ HINDI DAILY IN TELANGANA & ANDHRA PRADESH

स्वतंत्र वार्ता



epaper.vaartha.com

कोस्ट गार्ड में महिलाओं को परमानेंट कमीशन की मांग

केंद्र से सुप्रीम कोर्ट बोला- नारी शक्ति की बात करते हैं, तो यहां दिखाएं, पितृसत्तात्मक रवैया क्यों
नई दिल्ली, 20 फरवरी (एजेंसियां)। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन कोस्ट गार्ड (आईसीजी) में महिलाओं को परमानेंट कमीशन न देने पर केंद्र को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा, आप नारी शक्ति की बात करते हैं, तो इसे यहां दिखाएं। आप इतने पितृसत्तात्मक क्यों हैं कि कोस्ट गार्ड में महिलाओं को नहीं देखा चाहते? **>14**

प्रधान संपादक - डॉ. गिरीश कुमार संघी हैदराबाद नगर पृष्ठ : 16 मूल्य : 8 रुपये

‘जम्मू में अब एम्स भी है और आईआईटी-आईआईएम भी’

पीएम मोदी ने जम्मू में सभा कर परिवारवाद पर भी साधा निशाना

नई दिल्ली, 20 फरवरी (एजेंसियां)। पीएम मोदी ने जम्मू में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा उनका लक्ष्य जम्मू-कश्मीर को एक विकसित राज्य बनाना है और इस संकल्प के साथ उनकी सरकार काम कर रही है। पीएम ने इस दौरान परिवारवाद की राजनीति पर भी निशाना साधा और कहा कि इसका नुकसान हमारे युवा और नौजवान बेटे-बेटियां उठा रहे हैं। पीएम की यह सभा जम्मू के मौलाना आजाद मैदान में किया है। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा विकसित भारत विकसित जम्मू कार्यक्रम के तहत हो रहा है। पीएम का दौरा लोकसभा चुनाव से पहले काफी अहम माना जा रहा है।

जम्मू के मौलाना आजाद मैदान में पीएम मोदी ने कहा कि नया भारत अपनी वर्तमान पीढ़ी को आधुनिक शिक्षा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रहा है।



बीते 10 साल में देश में रिकॉर्ड संख्या में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का निर्माण हुआ है। पीएम मोदी ने परिवारवाद पर निशाना साधते हुए कहा कि जो सरकारें सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने में जुटी रहती हैं, वो सरकारें अपने राज्य के दूसरे युवाओं का भविष्य ताक पर रख देती हैं। ऐसी परिवारवादी सरकारें युवाओं के लिए योजनाएं बनाने पर भी प्राथमिकता नहीं देती। सिर्फ

अपने परिवार के बारे में सोचने वाले लोग कभी आपके परिवार की चिंता नहीं करेंगे। मुझे खुशी है कि जम्मू-कश्मीर को इस परिवार राजनीति से मुक्ति मिल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि जिस उत्साह और स्पष्टता से जम्मू-कश्मीर के लोग मुझसे बात कर रहे थे, अपने अनुभव बता रहे थे, वह उनकी खुशी और संतुष्टि को बताता है। देश में जो भी उस बातचीत को सुन रहा होगा, उसका मनोबल बढ़ा होगा, उसका विश्वास मजबूत हुआ होगा। उसे ‘मोदी की गारंटी’ का सही मतलब समझ आ रहा होगा। पीएम ने कहा कि एक वो दिन भी थे, जब जम्मू-कश्मीर से सिर्फ निराशा की खबर आती थीं। बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव। ऐसी ही बातें जम्मू-कश्मीर का दुर्भाग्य बना दी गई थीं। लेकिन आज जम्मू-कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।

केजरीवाल बोले, ईडी नहीं तो आधी भाजपा खाली हो जाएगी

मनी लॉन्ड्रिंग की धारा 45 खत्म करो, शिवराज-वसुंधरा भी नई पार्टी बना लेंगे

नई दिल्ली, 20 फरवरी (एजेंसियां)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को रोक दें और मनी लॉन्ड्रिंग यानी पीएमएलए की धारा 45 खत्म कर दें तो आधी भाजपा खाली हो जाएगी। इतना ही नहीं शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे जैसे नेता भाजपा से अलग होकर अपनी नई पार्टी बना लेंगे। केजरीवाल सोमवार को कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के घर लंच में शामिल हुए थे। यहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। केजरीवाल ने मजाकिया तौर पर कहा कि पीएमएलए की धारा 45 को हटा दीजिए तो जो तांता भाजपा की तरफ लगा हुआ है वह खत्म हो जाएगा। कोई बीजेपी जाइन नहीं करेगा। अरविंद केजरीवाल ने पीएमएलए की जिस धारा 45 का जिक्र किया है। इसके अंदर वाले



सभी अपराध गैर जमानती होते हैं। इसमें केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी को कुछ शर्तों के अधीन बिना किसी वारंट के आरोपियों को गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। इधर, शराब घोटेले में पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 20 फरवरी को भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि ईडी के समन गैरकानूनी हैं। जब समन की वैधता को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो बार-बार समन भेजने की जगह एजेंसी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए।

गुलाम रसे उमर बोले- पीएम आपके लिए आंसू बहाते हैं

आजाद ने कहा था- उमर-फारूक 370 हटने से पहले मोदी से सीक्रेटली मिले थे

नई दिल्ली/श्रीनगर, 20 फरवरी (एजेंसियां)। कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी (डीपीएपी) के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और फारूक



अब्दुल्ला को आर्टिकल 370 हटाने के बारे में पहले से पता था। गुलाम नबी आजाद ने दावा किया था कि उमर और फारूक

ने 370 हटाने से पहले पीएम मोदी और अमित शाह से सीक्रेट मीटिंग की थी। इन्होंने ही सरकार से कहा था कि हमें नजरबंद किया जाए, ताकि उन्हें 370 पर जनता से कोई बात न कहनी पड़े। ये दोनों नेता श्रीनगर में कुछ और बोलते हैं और दिल्ली में कुछ और दावा करते हैं। दोनों बहुत ही चालाकी से गेम खेलते हैं। इस पर उमर अब्दुल्ला ने एक्स

पर कहा, 370 हटने के बाद सरकारी बंगले से मेरे पिता को बाहर निकाल दिया गया। वहीं, गुलाम अकेले नेता थे जो अपना बंगला रिटन कर पाए। वो गुलाम कहा गया, जो 2015 तक हमसे राज्यसभा सीटों के लिए गुहार लगा रहा था। हम तो 8 महीने तक नजरबंद थे। आप इकलौते पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो 370 हटने के बाद नजरबंद नहीं थे।

आप कहते हो कि अब्दुल्ला श्रीनगर में एक बात कहते हैं और दिल्ली में दूसरी। फिर भी राज्यसभा में पीएम मोदी आपके लिए आंसू बहाते हैं और हमारी आलोचना करते हैं। पृथ अवंतर्ड के लिए आपने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया था। आजाद कौन है और गुलाम कौन, यह तो समय बताएगा और लोग तय करेंगे।

दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश- बच्चा गोद लेना मौलिक अधिकार नहीं

जिनके पहले से बच्चे हों वे कानूनन दिव्यांग को गोद ले सकते हैं, सामान्य बच्चा नहीं
नई दिल्ली, 20 फरवरी (एजेंसियां)। दिल्ली हाईकोर्ट ने बच्चों को गोद लेने के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना है। कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि जिनके पहले से ही दो बच्चे हों, वो सामान्य बच्चा गोद नहीं ले सकते हैं। हालांकि, उन्हें दिव्यांग को गोद लेने का अधिकार है। कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान मंगलवार को कहा कि बच्चे को गोद लेने के अधिकार को आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी कपल को यह चुनने का अधिकार नहीं है कि किसे गोद लेना है। दरअसल, कोर्ट में प्रोस्पेक्टिव एडेप्टिव पेरेंट्स (पीपीएएस) यानी भावी दत्तक

>14

मराठाओं को 10 प्रतिशत आरक्षण देगी शिंदे सरकार महाराष्ट्र विधानसभा में बिल पास, रिजर्वेशन कोटा 62 प्रतिशत हुआ, जरांगे बोले- सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा



मुंबई, 20 फरवरी (एजेंसियां)। महाराष्ट्र विधानसभा में मंगलवार 20 फरवरी को मराठाओं को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का बिल पास हो गया। सीएम शिंदे अब इस बिल को विधान परिषद में पेश करेंगे। वहां से पास होने के बाद यह कानून बन जाएगा। शिंदे सरकार ने इस बिल के लिए एक दिन का स्पेशल सेशन बुलाया है। विधानसभा में पास होने से पहले बिल पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। मराठा आरक्षण बिल पारित होने से मराठाओं को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। राज्य में 52 प्रतिशत आरक्षण पहले से है। 10 प्रतिशत मराठा आरक्षण जुड़ने से रिजर्वेशन लिमिट 62 प्रतिशत

हो जाएगी। रिजर्वेशन कोटा 50 प्रतिशत से ज्यादा होने से इस बिल को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2021 में मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण देने के फैसले को रद्द कर दिया था, क्योंकि रिजर्वेशन लिमिट 50 प्रतिशत से ऊपर हो गई थी। बिल पास होने के बाद सीएम शिंदे ने कहा, जो हमने बोला था, वो किया। हमने कोई राजनीतिक लाभ के लिए फैसला नहीं लिया है। मराठा समाज आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है। मराठाओं को आरक्षण मिलने से ओबीसी या किसी अन्य समाज के आरक्षण को नुकसान नहीं होगा।

मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि जो बिल पास हुआ, वह मराठा आरक्षण की मांग के अनुरूप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसे नहीं मानेगा। हमें ओबीसी कोर्ट के तहत आरक्षण चाहिए। उन्होंने बुधवार (21 फरवरी) दोपहर मराठा समुदाय की बैठक बुलाई है।

जरांगे बोले- हमें ओबीसी कोर्ट से रिजर्वेशन चाहिए : जरांगे ने बिल को लेकर कहा कि इसमें मराठाओं की मांग को पूरा नहीं किया गया है। आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत के ऊपर हो जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर देगा। हमें ऐसा आरक्षण चाहिए जो ओबीसी कोर्ट से हो और 50 प्रतिशत के नीचे रहे। जरांगे ने कहा, सरकार हमें मूर्ख न बनाए। अगर ओबीसी कोर्ट से मराठाओं को आरक्षण नहीं मिला तो हमारा आंदोलन और तेज होगा। विधानमंडल के विशेष सत्र में हमारी मांगों पर विचार हो रहा है या नहीं, हम देखेंगे।

पुणे में 1100 करोड़ की मेफेड्रोन जन्त :

तीन गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज
पुणे, 20 फरवरी (एजेंसियां)। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने तीन लोगों को 1.75 किलोग्राम मेफेड्रोन ड्रग (एमडी) के साथ गिरफ्तार किया। बाजार में इसकी कीमत 3.85 करोड़ रुपये के करीब है। आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने दो और गोदामों का पता लगाया, जहां 55 किलोग्राम एमडी और मिली। पुणे पुलिस आयुक्त अमिर्तेस कुमार ने कहा, तीनों से पूछताछ के बाद और उनसे मिले ड्रगपुट के आधार पर कुरुकुं महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) क्षेत्र में एक और ऑपरेशन चलाया गया, जहां एक फैक्ट्री से लगभग 550 किलोग्राम एमडी बरामद किया गया।

सोनिया पहली बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित

नट्टा सहित ये उम्मीदवार भी निर्विरोध चुने गए



जयपुर/गांधीनगर, 20 फरवरी (एजेंसियां)। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए राजस्थान से निर्विरोध चुनी गईं। इसके अलावा, भाजपा के चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़ को भी राज्यसभा के लिए चुना गया है। मंगलवार को नामांकन पत्र वापस लेने का अंतिम दिन था। राजस्थान विधानसभा के सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि किसी अन्य उम्मीदवार ने चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए तीनों निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुने गए। राज्यसभा सदस्य मनमोहन सिंह (कांग्रेस) और भूपेन्द्र यादव (भाजपा) का कार्यकाल तीन अप्रैल को समाप्त हो रहा है। भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने विधायक चुने जाने के बाद पिछले साल दिसंबर में इस्तीफा दिया था। जिसके बाद तीसरी सीट खाली थी। राजस्थान की 200 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 115 और कांग्रेस के 70 सदस्य हैं। राज्य में राज्यसभा की 10 सीटें हैं। नतीजों के बाद राज्यसभा में राजस्थान से कांग्रेस के छह और भाजपा के चार सदस्य होंगे।

जेपी नट्टा को भी राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया वहीं, भाजपा प्रमुख जेपी नट्टा और पार्टी के तीन अन्य उम्मीदवारों को गुजरात से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया है। राज्यसभा की चार सीटें खाली थीं। सत्तारूढ़ भाजपा ने सभी सीटों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए थे। एक अधिकारी ने बताया कि गुजरात से राज्यसभा की चार खाली सीटों के लिए किसी अन्य ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। जिसके बाद निर्वाचन अधिकारी रीता मेहता ने नट्टा सहित चारों भाजपा उम्मीदवारों को संसद के ऊपरी सदन के लिए निर्विरोध विजयी घोषित किया। नट्टा के अलावा राज्यसभा के जिन तीन भाजपा नेताओं को राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया है, उनमें हीरा कारोबारी गोविंदभाई ढोलकिया, भाजपा नेता जसवंत सिंह परमार और मयंक नायक शामिल हैं।

fasshion yatra

by Kangan Saraf

Fasshion Yatra

PRESENTS

The Spring Affair

21st February

10am to 8 pm

Taj Krishna, Hyderabad

विश्वकर्मा जयंती मारवाड़ी समिति

हाईटेक सिटी, गच्छीबावली द्वारा

श्री विश्वकर्मा महाराज का ग्यारहवाँ विशाल जागरण

इस अवसर पर सभी भक्तजन सादर आमंत्रित हैं।

निवेदक महाधमादी सभी समाज बन्धु, भक्तगण

बुधवार 21 फरवरी 2024 रात्रि 8.21 से सम्पूर्ण रात्रि शुभस्थल : श्री कृष्णा गौ सेवा मंडल, नारसिंगी, कोकापेट रोड, हैदराबाद

रामनिवास गोरछिया, गणेशाराम ढाका, ओमप्रकाश सिंवर, नेमीचंद सियाग, राजूराम ढाका दामोदर लोखब, लिखमराम पुनिया, सुरजाराम कुकणा, हनुमान नाथ सिद्ध, भंवरसिंह, हुक्मीचन्द हजारीराम गोदारा, जब्बर सिंह, उम्मेदसिंह, धर्मराम सिंवर, हरी राम सुथार, आणंद सिंह कोजाराम नैन, ओमप्रकाश बड़ियासरा, गोपालराम जाखड, नेनुराम डुडी, टिकुराम सारण बाबुलाल सुथार, मोहनराम तखड, सोहनराम भाभ्यू, आईदान छाबा, सुरेश बड़ियासरा, मुखराम सुथार

अधिक जानकारी हेतु संपर्क:

9849361376, 9885727335, 9052146034, 9912750791, 7799333370, 9849488429

9849242634, 9493466077, 9885436619, 9866612831, 9246295698, 9246338030

9587136904, 9866962297, 9246338031, 9550260471, 9573552999, 9963430727

आरआरआर (क्षेत्रीय रिंग रोड) दक्षिणी भाग को मंजूरी

सीएम रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की



नई दिल्ली, 20 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। क्षेत्रीय रिंग रोड (आरआरआर)-दक्षिणी भाग (चौटुप्पल-अमंगल-शादनगर-संगारेड्डी 182 किलोमीटर की दूरी पर) की घोषणा की बाधाएं दूर कर दी गई हैं। आरआरआर - उत्तरी भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में हाल ही में घोषित करने के बाद, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से आरआरआर दक्षिणी भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अपग्रेड करने का अनुरोध किया। बैठक के तुरंत बाद, केंद्रीय मंत्री ने एनएचआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के अधिकारियों को आरआरआर के दक्षिणी खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। आरआरआर मुद्दे के अलावा, सीएम रेवंत रेड्डी ने नितिन गडकरी से तेलंगाना में राष्ट्रीय

राजमार्गों के विस्तार के लिए अनुमति देने और कई महत्वपूर्ण राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में अपग्रेड करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विस्तारित की जाने वाली राज्य सड़कों की सूची केंद्रीय मंत्री को सौंपी और उन सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के महत्व को समझाया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज (मंगलवार) दोपहर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। डेढ़ घंटे से अधिक की मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री का ध्यान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों में आ रही चुनौतियों से दिलाया। बैठक में उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क, राज्य सड़क और भवन मंत्री कोमटिरिड्डी वेंकट रेड्डी, आर और बी सचिव श्रीनिवास राजू और तेलंगाना भवन (नई दिल्ली) के रजिस्ट्रार कमिश्नर

गौरव उप्पल ने भी भाग लिया। सीएम और केंद्रीय मंत्री ने चौटुप्पल-भुवनगिरि-तूरान-संगारेड्डी-कांडी को कवर करने वाले रिंग रोड (आरआरआर) उत्तरी भाग की सीमा में उपयोगिताओं (बिजली के खंभे, भवन आदि) को हटाने के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद पर चर्चा की। कुछ महीने पहले, एनएचआई अधिकारियों ने सुझाव दिया था कि उपयोगिताओं के स्थानांतरण की लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी चाहिए। चूंकि राज्य सरकार एनएचआई की शर्त से सहमत नहीं थी, इसलिए इस मुद्दे पर गतिरोध जारी रहा। सीएम के रूप में कार्यभार संभालने के बाद, रेवंत रेड्डी ने एनएचआई को एक पत्र भेजा जिसमें उपयोगिताओं के स्थानांतरण की लागत वहन करने पर सहमति व्यक्त की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने नितिन गडकरी के सामने इस मुद्दे

का जिक्र किया। केंद्रीय मंत्री ने एनएचआई अधिकारियों से इस मुद्दे पर पुछताछ की और राज्य सरकार से लागत वहन करने के लिए कहने पर नाराजगी व्यक्त की। एनएचआई के केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यदि राज्य सरकार उपयोगिताओं के स्थानांतरण की लागत वहन करती है, तो टोल राजस्व का आधा हिस्सा राज्य सरकार को देना होगा। नितिन गडकरी ने आश्वासन दिया कि केंद्र उपयोगिताओं के स्थानांतरण की लागत वहन करेगा। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री से आरआरआर के निर्माण से संबंधित

सीएम ने केंद्रीय मंत्री को दिया इन मार्गों का प्रस्ताव

नई दिल्ली, 20 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में उन्नयन के प्रस्तावों का विवरण इस प्रकार है। प्रमुख रूप से 1.मारीकल-नारायणपेट-रामसमुद्र-63 किमी., 2.पेदापल्ली-कटास-66 किमी., 3. पुल्लूर-आलमपुर-जटाप्रोल-पेटलावेली-कोल्लपुर-लिंगल-अचमपेटा-डिंडी-देवराकोडा-मल्लेपल्ली-नलगोंडा-225 किमी., 4. वानागर्था-कोठाकोटा-गडवाल-मंत्रालयम-110 किमी., 5. मन्नेगुडा-विकाराबाद-तंदूर-जहीराबाद-बीदर-134 किमी., 6. करीमनगर-सिरिसिल्ला-कामारेड्डी-येलारेड्डी-पिटलम-165 किमी., 7. येरवेली क्रॉस रोड-गडवाल-रायचूर-67 किलोमीटर, 8. जगित्याला-पेदापल्ली-कलवा श्रीरामपुर-किष्कपेट-कल्वापल्ली-मोरंचापल्ली-रामप्पा मंदिर-जंगलपल्ली-164 किमी., 9. सरपाका-पट्टरुनगरम-93 किमी, 10. डुड्डेशा-कोमुरावेल्ली-यदगिरिगुडा-रावगिरि चौराहा-63 किमी., 11. जगैयापेट-वायरा-कोठापुडम-100 किमी. 12. सिरिसिल्ला-वेमुलावाड़ा-कोरुल्ला-65 किमी. 13. भुतपुर-नगरकूर्नल-मन्नानूर-महीमडुगु (तेलंगाना)-गंगलाकुटा-सिरिगिरिपाडु-166 किमी, 14. करीमनगर-रायपट्टनम-60 किमी शामिल हैं।

भूमि अधिग्रहण और प्रक्रियात्मक प्रक्रियाओं में तेजी लाने को कहा है। सीएम रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री से हैदराबाद से विजयवाड़ा तक राष्ट्रीय राजमार्ग को छह लेन और हैदराबाद से कलवाकुर्ती तक सड़क को चार लेन तक चौड़ा करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने का भी अनुरोध किया। सीएम की अपील पर नितिन गडकरी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को सीआरआईएफ (कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड) के अनुदान के लिए आवश्यक प्रस्ताव भेजने का भी सुझाव दिया।

पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मानू की तीन इमारतों का उद्घाटन किया



हैदराबाद, 20 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मौलाना आज़ाद स्टेडियम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय (एमएएनयूयू) की तीन इमारतों (स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, हैदराबाद, इंजीनियरिंग वर्कशॉप, हैदराबाद और पॉलिटेक्निक बिल्डिंग, कटक, ओडिशा, जम्मू) का उद्घाटन किया। मानू हैदराबाद परिसर ने प्रबंधन भवन का निर्माण 11.19 करोड़ रुपये और तीन मंजिला इंजीनियरिंग वर्कशॉप भवन 25 करोड़ रुपये की लागत से दो मंजिला वाणिज्य और व्यवसाय भवन के अलावा कटक, ओडिशा में पॉलिटेक्निक भवन का निर्माण 28.22 करोड़ रुपये की लागत से किया गया था। प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन, कुलपति, प्रोफेसर इशितयाक अहमद, रजिस्ट्रार के साथ-साथ विभिन्न विभागों के डीन, प्रोफेसर और प्रमुखों ने आईएमसी प्रिन्स थिएटर मानू में प्रधान मंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम में भाग लिया। बाद में, प्रोफेसर ऐनुल हसन ने हैदराबाद परिसर में वाणिज्य और व्यवसाय प्रबंधन और इंजीनियरिंग कार्यशाला की इमारतों पर स्थापित आधारशिला पट्टिकाओं का

अनावरण किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में आयोजित एक कार्यक्रम में मानू के अलावा 12 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 10 आईआईटी, 3 आईआईएम, 25 केंद्र विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और स्किलिंग सहित 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। देश भर में 83 स्थानों पर संस्थान और शिलान्यास भी किया है। भारत सरकार के शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए, कुलपति प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने खुशी व्यक्त की कि केंद्र सरकार ने लगभग 65 करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए

अपना समर्थन दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस नए बुनियादी ढांचे के साथ विश्वविद्यालय शिक्षा और अनुसंधान में नई ऊंचाइयां हासिल करने में सक्षम होगा। प्रो. शुगुफा शाहीन, प्रो. सिद्दीकी मो. महमूद, प्रो. अब्दुल वाहिद, प्रो. स्किलिंग सहित 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। देश भर में 83 स्थानों पर संस्थान और शिलान्यास भी किया है। भारत सरकार के शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए, कुलपति प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने खुशी व्यक्त की कि केंद्र सरकार ने लगभग 65 करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए

राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के 37वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया



हैदराबाद, 20 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। तेलंगाना की राज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल, डॉ. (श्रीमती) तमिलिसाई सौंदरराजन ने फरवरी में तेलंगाना के राजभवन में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के 37वें स्थापना दिवस के राज्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत राज्यपाल द्वारा दोनों राज्यों के लोगों को उनके स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देने के साथ हुई। उन्होंने इस तरह के साथैक

आयोजन की शुरुआत करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त किया। जो वास्तव में राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त करता है। अपने संबोधन में, डॉ. (श्रीमती) तमिलिसाई सौंदरराजन ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम और तेलंगाना के बीच मजबूत सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने तमिलनाडु के तिरुवनमलाई जिले में प्रतिष्ठित भगवान अरुणाचलेश्वर मंदिर का संदर्भ देते हुए अरुणाचल

प्रदेश और दक्षिण भारत के बीच एक व्यावहारिक संबंध दर्शाया। कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों के राज्यपालों के वीडियो संदेश शामिल थे। यह उत्सव जीवंत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से जीवंत हो उठा, जिसमें दोनों राज्यों के प्रतिभाशाली प्रतिभागियों का आकर्षक बांस नृत्य भी शामिल था। कार्यक्रम का संचालन आर.लालहरियातपुई ने किया।

विशिष्ट वक्ता, जिनमें डॉ. क्रिस्टीना ज़ेड चोंगथु, आईएसएस, सचिव, स्वास्थ्य विभाग, तेलंगाना सरकार; डॉ. सी. वनलालहुड्ड, हैदराबाद विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर; और हैदराबाद विश्वविद्यालय के मास्टर छात्र एजुम रीबा ने सभा को संबोधित किया और इस अवसर पर अपने दृष्टिकोण साझा किए। दोनों राज्यों के सम्मानित अतिथि उत्सव में शामिल हुए, जिससे उत्सव का माहौल और भी बढ़ गया।

गंगापुर मेले का भव्य आयोजन किया जाये : जिला कलेक्टर

आसिफाबाद, 20 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। जिला कलेक्टर हेमन्त बोरकडे ने कहा कि जिले के रेबेना मंडल गंगापुर में हर वर्ष आयोजित होने वाली श्री बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी जातरा के तहत इस माह की 23, 24 एवं 25 तारीख को आयोजित होने वाली जातरा को अधिकारियों के समन्वय से

सफलतापूर्वक आयोजित किया जाए।

जिला अपर समाहर्ता दीपक तिवारी, मंदिर के कार्यकारी अधिकारी बापूरेड्डी और समिति आयोजकों ने मंगलवार को गंगापुर देवस्थानम के परिसर में बैठक की। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि मेले में स्वच्छता कार्यों की विशेष



निगरानी हेतु 60 कार्मिकों की नियुक्ति की गयी है तथा पेयजल हेतु ग्रामीण सिंचाई विभाग एवं मिशन भागीरथ के निर्देशन में 5 पानी की टंकियों स्थापित करायी जाये। भक्त सीआई को शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के उपाय करने के साथ-साथ वाहन नियंत्रण एवं यातायात व्यवधान रहित रुकने के स्थान की व्यवस्था करने को कहा गया है। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के उप चिकित्सा अधिकारी सुधाकर नाईक को आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए चिकित्सा शिविर स्थापित करने और आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने

के लिए डॉक्टरों और कर्मचारियों की नियुक्ति करने और 108 एम्बुलेंस और अस्थायी बिस्तरों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। जिला ग्रामीण विकास अधिकारी सुरेंद्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि मेला जारी रहने के दौरान बिजली की कोई बाधा न हो और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करें कि मेला प्लास्टिक मुक्त हो। मंडल तहसीलदार ज्योत्सना, मंडल परिषद विकास अधिकारी शंकरम्मा, एम.पी.पी. सौंदर्या, जेड.पी.टी.सी. संतोष, संबंधित अधिकारी, मंदिर समिति के प्रतिनिधि एवं अन्य लोग शामिल हुए।

हैदराबाद, 20 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने मंगलवार को परिषद में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 7,937 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट को मंजूरी दे दी। हैदराबाद महानगर निगम की नियमित बैठक, जो सोमवार को स्थगित कर दी गई थी, मंगलवार सुबह फिर से शुरू हुई और जीएचएमसी परिषद की बैठक मेयर विजयलक्ष्मी की अध्यक्षता में शुरू हुई। इस बैठक में कुल 7,937 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट पेश किया गया। मेयर गदवाल विजयालक्ष्मी ने घोषणा की कि बैठक में सभी ने सर्वसम्मति से बजट को मंजूरी दे दी। कुल बजट 7,937 करोड़ रुपये है जिसमें से राजस्व आय 5,938 करोड़ रुपये और राजस्व व्यय 3458 करोड़ रुपये है। राजस्व अधिशेष 2840 करोड़ रुपये, पूंजीगत प्राप्ति 4479 करोड़ रुपये, पूंजीगत व्यय 4,479 करोड़ रुपये और कुल व्यय 7,937 करोड़ रुपये है। इससे पहले बजट बैठक की शुरुआत में स्वच्छता नगर नियोजन, खेल और संपत्ति कर के बाकी पहलुओं पर सवाल-जवाब का कार्यक्रम जारी रहा। इस अवसर

पर कई नगरसेवकों ने कहा कि उनके संबंधित प्रभागों में खेल मैदानों का प्रबंधन उचित नहीं है और सुविधाएं बनाने के लिए तुरंत कदम उठाने का अनुरोध किया गया है। कई पार्श्वों ने संबंधित अधिकारियों की हिलाई पर नाराजगी व्यक्त की है। जोनल आयुक्तों, संबंधित अधिकारियों और पार्श्वों को समस्याओं के बारे में फोन करने पर जवाब देना चाहिए और महापौर ने आयुक्त को मामले की समीक्षा करने की सलाह दी है। पार्श्वों ने जीएचएमसी से संपत्ति कर के संग्रह पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा, बल्कि संपत्ति कर का उचित संग्रह, जीएचएमसी के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत है। संबंधित अधिकारियों ने संपत्ति कर के ऑनलाइन स्व-मूल्यांकन प्रक्रिया को लागू करने और आयुक्त के माध्यम से सरकार को प्रस्ताव भेजने की मांग की। उन्होंने कहा कि आवासीय अनुमति ली जा रही है और उसे रातों-रात कॉमर्शियल में तब्दील किया जा रहा है और उनके



खिलाफ कारवाई करने को कहा है। इस मौके पर कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने कहा कि जीएचएमसी को आने वाली आय का एक बड़ा हिस्सा आयकर संग्रह से आता है। उन्होंने कहा कि शहर दिन-ब-दिन विकसित हो रहा है और जीएचएमसी का राजस्व बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। गैर आवासीय के लिए टैक्स तय करने का तरीका कानून में है। गैर-आवासीय की कई श्रेणियां हैं जहां जीएस मैपिंग के माध्यम से दरवाजा संख्या का युक्तिकरण किया जाता है। उन्होंने कहा कि कर संग्रह की दुनिया में समस्याएं हैं और समीक्षा में समाधान तलाशे जा रहे हैं। निवासियों और गैर-निवासियों के लिए कर की दरें अलग-अलग हैं। दर परिवर्तन पर 2017 और 2019 में जीओ जारी किए गए थे। हम सरकार द्वारा गरीबों को बांटे जाने वाले डिग्रीटी हाउस को डोर नंबर देने के लिए कदम उठा रहे हैं। इसके उलट शहर के ओयो होटलस और होस्टलों की जांच कर टैक्स वसूलने पर कार्रवाई की जायेगी। टैक्स वसूली में हम कानून का पालन कर रहे हैं। नियमों का उल्लंघन

करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। यदि पार्किंग के लिए बनाए गए तहखानों का उपयोग अन्य कार्यों के लिए किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीटी में विक्रेताओं की देखना चाहिए कि जीवीपी से कचरा बार-बार और दैनिक आधार पर उठाया जाए। कई सदस्यों ने जहां मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनें नहीं हैं, वहां उपलब्ध कराने को कहा या फिर स्थायी समिति ने लंबे समय से आयुक्त ने जवाब दिया और स्वीपिंग मिशन के प्रबंधन के बारे में बताया। नॉन सीआरएमपी के पास 18 स्वीपिंग मिशन हैं जबकि सीआरएम के पास 20 और 38 स्वीपिंग मिशन हैं। कुल 18 सफाई कर्मचारी हैं। उन्होंने कहा कि आवश्यक स्वीपिंग मिशन बढ़ाया जाए, साथ ही स्टाफ बढ़ाया जाए और ग्रीन बेस्ट हटाने के लिए कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि उन्हें यह देखना चाहिए कि जीवीपी से कचरा बार-बार और दैनिक आधार पर उठाया जाए। कई सदस्यों ने जहां मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनें नहीं हैं, वहां उपलब्ध कराने को कहा या फिर स्थायी समिति ने लंबे समय से आयुक्त ने जवाब दिया और स्वीपिंग मिशन के प्रबंधन के बारे में बताया। नॉन सीआरएमपी के पास 18 स्वीपिंग मिशन हैं जबकि सीआरएम के पास 20 और 38 स्वीपिंग मिशन हैं। कुल 18 सफाई कर्मचारी हैं।

'मानव तस्करी से निपटने और लापता व्यक्तियों का पता लगाने' पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित



हैदराबाद, 20 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। तेलंगाना राज्य पुलिस की महिला सुरक्षा विंग द्वारा मानव तस्करी विरोधी इकाइयों (एचटीयू), रेलवे के अधिकारियों के लिए 'मानव तस्करी से निपटने और लापता व्यक्तियों का पता लगाने' पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला सुरक्षा बल (आरपीएफ), सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) और नागरिक समाज संगठन बचपन बचाओ आंदोलन (बीबीओ) और अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के सहयोग से आयोजित की गई। यह मानव तस्करी से निपटने और बच्चों की सुरक्षा की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बढ़ाने के उद्देश्य से तेलंगाना पुलिस के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। उद्घाटन सत्र में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास की जनरल सुश्री जेनिफर लॉसन, महेश भागवत अतिरिक्त महानिदेशक, जीआरपी और रेलवे और सड़क सुरक्षा, सुश्री अरोमा सिंह ठाकुर आईआरपीएफएस, आईजी सह पीसीएससी, आरपीएफ, दक्षिण मध्य रेलवे (एससीआर), सुश्री देबशमिता

सी. बनर्जी, आईआरपीएफएस, सीनियर डीएससी, रेलवे सुरक्षा बल, सिकंदराबाद डिवीजन, सुश्री एरिन फिशर, विदेशी आपराधिक अन्वेषक, बचपन बचाओ राज्य समन्वयक और की टीम अमेरिकी वाणिज्य दूतावास की गरिमाययी उपस्थिति रही। उद्घाटन भाषण देते हुए, सुश्री रेमा राजेश्वरी डीआईजी महिला सुरक्षा विंग ने श्रीमती शिखा गोयल, एडीजी महिला सुरक्षा विंग के विजन स्टेटमेंट को रेखांकित किया, जिनके मार्गदर्शन में, आज के प्रशिक्षण सत्रों को मानव तस्करी से निपटने के विभिन्न पहलुओं को कवर करने के लिए सामाजिकपूर्वक डिजाइन किया गया था। लापता बच्चों का पता लगाना, बचाव और पुनर्वास के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी), प्रौद्योगिकी का उपयोग, धोखाधड़ी वाले यात्रा दस्तावेजों का पता लगाना और कई हितधारकों के साथ सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है। शिखा गोयल ने कहा कि महिला सुरक्षा विंग ने तस्करी के मुद्दे को समग्र रूप से संबोधित करने

के लिए यूनिसेफ, महिला और बाल कल्याण विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, नागरिक समाज भागीदारों आदि जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ काम किया है।

वारहवीं

पुण्यतिथि

स्व.श्री भुरसिंहजी राजपुरोहित

सुपुत्र : स्व. श्री गोरधनसिंहजी मल्हव ने दोनही की डाणी (वण्डवल नगर)

स्वर्गवास: 21-02-2012

घाटों में केवल आप हो, नयनों में पावन स्वरूप।
अदा मुघन सन्निपत मन से, श्रद्ध नहीं अनुरूप।।

* : श्रद्धांजलि अर्पितकर्ता : *

प्रेमलता (धर्मपत्नी) नीतु-अमरसिंहजी, रेखा-मनोहरसिंहजी,
मीना-मनोहरसिंहजी, डियल-प्रेमसिंहजी, पिकी-अवतारसिंहजी,
इन्द्रा-हितेशसिंहजी (पुत्री-दामाद), सुरज, नेहा, दिव्या, रोशनी,
सिमरन, जितेन्द्र, मोहित, हंसिका, विशाल, राहुल, आदित्य,
तनिशा, प्रियांशु, वरवन्त, गुणगुन (दोयता-दोयती)
एवं राज्यपुरोहित परिवार

: फर्म : श्री हनुमान ज्वेलर्स

मेन रोड हयतनगर हैदराबाद 9849269271, 9849556571

अगले 12 घटे होगी झमाझम बारिश

चलेगी आंधी, आईएमडी की नई चेतावनी जारी

मेरठ, 20 फरवरी (एजेंसियां)। यूपी में बारिश का दौर जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से आज प्रदेश में ओले गिर सकते हैं। साथ ही, यूपी के कई इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना है।

मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी

मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में प्रदेश में मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के मुताबिक, आज यानी 20 फरवरी को प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश पड़ने की संभावना है। वहीं, पूर्वी यूपी में एक-दो इलाकों में तेज हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटे) चलने की संभावना है और पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में तेज हवाएं (40-50 किमी प्रति घंटे) चलने की संभावना है। इसके साथ ही, पश्चिमी यूपी के इलाकों में ओलावृष्टि पड़ने की संभावना है।

इन जिलों में अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने यूपी के बदायूं, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, गाजियाबाद, बागपत, सहारनपुर, मेरठ समेत 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है।

23 फरवरी को बदलेगा मौसम

मौसम में यह बदलाव 22 फरवरी तक जारी रहेगा। मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया है कि 23 फरवरी से मौसम साफ हो जाएगा। ऐसे में 22 फरवरी तक बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की संभावना बनी रहेगी।

'हमने नहीं बुलाया,

खुद ही आए थे', राबड़ी देवी का नीतीश कुमार पर निशाना



पटना, 20 फरवरी (एजेंसियां)। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी उन्होंने (नीतीश कुमार) पलटौ मारी थी तब वे खुद ही आए थे, हमने नहीं बुलाया था। अपने जाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने पिछले दिनों महागठबंधन का साथ छोड़ दिया था और बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल हो गए थे और 9वीं बार सीएम पद की शपथ ली। इसी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की नेता राबड़ी देवी ने वार किया है।

जांच पर राबड़ी देवी का बयान

लालू परिवार के खिलाफ नीतीश कुमार के जांच वाले बयान पर राबड़ी देवी ने कहा, "जांच होने दीजिए, 25 साल से हमारे ऊपर जांच हो रही है, लेकिन कहाँ कोई नई बात निकल कर आ रही है। हमारे साथ देश और बिहार की जनता है।" बयान देते समय राबड़ी देवी के गोद में तेजस्वी यादव की बेटी कात्यानी भी थी। तेजस्वी यादव ने आज से बिहार में जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की है। उन्होंने इस मौके पर मां राबड़ी देवी और पिता लालू यादव से आशीर्वाद लिया।

2 साल तक नहीं मनाई सुहागरात तो थाने पहुंच गई पत्नी, पति पर लगवाई 7 धाराएं

मुजफ्फरपुर, 20 फरवरी (एजेंसियां)। मुजफ्फरपुर में एक महिला ने शारीरिक संबंध नहीं बनाने पर अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। महिला थाना पुलिस ने पति सहित छह को नामजद किया है। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। पीड़िता वैशाली जिले के लालगंज थाना इलाके के एक गांव की रहने वाली है। जबकि आरोपी पति अहियापुर थाना इलाके का रहने वाला है। थाने में दर्ज एफआईआर में पीड़िता ने बताया, "मेरी शादी 31 मई 2021 को हुई थी। शादी के बाद मैं अपने ससुराल चली गईं। मेरे पति शादी के दो साल बाद तक मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए। तब मैंने अपने ससुरालवालों को बताया। लेकिन उन्होंने भी पति को नहीं समझाया। फिर पीड़िता ने अपने पति से कहा, आप संबंध क्यों नहीं बनाते? लेकिन वह अक्सर गाली-गलौज करते हुए मारपीट करता था।

22 को वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी

66 मेधावियों को देंगे स्कॉलरशिप

वाराणसी, 20 फरवरी (एजेंसियां)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को दो दिवसीय दौरे पर काशी आएंगे। अगले दिन 23 फरवरी को सबसे पहले सुबह लगभग साढ़े नौ बजे स्वतंत्रता भवन, बीएचयू में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के वर्ष 2023 व 2024 के वेद, मीमांसा समेत 22 विभागों के टॉपर 66 छात्रों को स्कॉलरशिप देंगे। इसके अलावा समस्त संस्कृत विद्यालयों के छात्रों के लिए निशुल्क पुस्तकें व वस्त्र तथा शिक्षक व चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को दो जोड़ी वस्त्र व उपयोगी पुस्तकें तथा 38 संस्कृत विद्यालयों को तबला समेत अन्य वाद्य यंत्र वितरण कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान चुनिंदा



प्रतियोगिता में विजेता टीम को पीएम देंगे पुरस्कार

इसी क्रम में प्रधानमंत्री श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की ओर से कराए गए संस्कृत प्रतियोगिता, प्रशासन की ओर से कराए गए सांसद ज्ञान प्रतियोगिता व फोटो प्रतियोगिता के पांच-पांच विजेताओं व टीम को पुरस्कृत करेंगे।

पांच लोगों को वस्त्र व किताबें अपने हाथ से देंगे।

फोटो प्रदर्शनी को भी देखेंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री इस दौरान फोटो प्रदर्शनी

को देखेंगे। इस प्रदर्शनी की बेहतर फोटो को विशेषज्ञ चयनित करेंगे और इसे भी पुरस्कृत करने का कार्यक्रम है। इसके अलावा कुछ किताबों का

माफिया अतीक अहमद के परिवार की मदद करने वाले योगी ने की बड़ी कार्रवाई



प्रयागराज, 20 फरवरी (एजेंसियां)। माफिया अतीक अहमद के दबाव में वक्फ की संपत्ति उसके परिवार वालों को अवैध तरीके से लीज पर दिए जाने के मामले में यूपी की योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार के दखल पर यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने माफिया अतीक और उसके परिवार के मददगार मुतवल्ली को उसके पद से हटा दिया है। आरोपी मुतवल्ली की जगह नए मुतवल्ली की नियुक्ति के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। आरोपी मुतवल्ली मोहम्मद असियम के खिलाफ पहले ही क्रिमिनल केस दर्ज किया जा चुका है।

हालांकि गिरफ्तारी के डर से वह लगातार फरार चल रहा है। गौरतलब है कि प्रयागराज के पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के सल्लाहपुर गांव में शेख अब्दुल समद और शेख करीम बख्श द्वारा वक्फ की गई करोड़ों की बेशकीमती संपत्ति थी। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कई बोधा क्षेत्रफल में स्थित इस वक्फ प्रापटी का मुतवल्ली मोहम्मद अशियम को बना रखा था। मुतवल्ली मोहम्मद

अशियम ने माफिया अतीक अहमद के दबाव में तकरीबन पचास करोड़ रुपए कीमत की सात बीघा जमीन उसके परिवार वालों को अवैध तरीके से लीज पर दे दी थी।

शानदार मकान के साथ ही कुछ दुकानें भी बनवा लीं

वक्फ की प्रापटी कौड़ियों के भाव माफिया अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा वा ससुराल के दूसरे लोगों को लीज पर दी गई थी। जैनब वा उसके भाइयों ने इस जमीन पर शानदार मकान के साथ ही कुछ दुकानें भी बनवा ली थीं। अतीक और अशरफ की हत्या के कुछ दिन बाद हुई जांच में वक्फ प्रापटी के इस फर्जीबाड़े का खुलासा हुआ। खुलासे के बाद वक्फ प्रापटी के केयर टेकर माबूद अहमद की शिकायत पर प्रयागराज पुलिस ने पुरामुफ्ती थाने में माफिया अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा, दो साले जैद व सद्दाम, मुतवल्ली मोहम्मद असियम, उसकी पत्नी जन्मत, ग्राम प्रधान रहे सिबली और करीबी ताफिक के खिलाफ पिछले साल नवंबर महीने में नामजद एफ आई आर दर्ज की थी।

अस्पताल से डिस्चार्ज हुई प्रियंका गांधी

मुरादाबाद में 24 फरवरी को न्याय यात्रा में होंगी शामिल

मुरादाबाद, 20 फरवरी (एजेंसियां)। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मुरादाबाद के जामा मस्जिद चौराहे से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। यात्रा के मार्ग का सर्वे पूरा हो गया है। इसके साथ ही 24 फरवरी को मुरादाबाद में भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। बता दें कि मुरादाबाद प्रियंका गांधी की ससुराल है। दरअसल बीमार होने के कारण प्रियंका गांधी को



अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां इलाज के बाद प्रियंका गांधी डिस्चार्ज हो गई हैं लेकिन अभी वह कमजोरी महसूस कर रही हैं।

मुरादाबाद से शुरु होगी यात्रा

कांग्रेस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समागम यात्री को यात्रा का रूट बदल कर लखनऊ के बाद कानपुर, जालौन,

झांसी के रास्ते मध्य प्रदेश में प्रवेश की तैयारी की थी। लेकिन अब राहुल गांधी की यात्रा का रूट एक बार फिर बदल दिया गया है। अब राहुल की यात्रा कानपुर में रुकेगी और दो दिनों के ब्रेक के बाद फिर मुरादाबाद से शुरू होगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए कांग्रेसी तैयारी में जुट गए हैं।

चुनाव से पहले अखिलेश की बढ़ी टेंशन

नाराज स्वामी प्रसाद मोर्य ने नई पार्टी का किया एलान; कह दी ये बात



लखनऊ, 20 फरवरी (एजेंसियां)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मोर्य अब अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। स्वामी अपने समर्थकों के साथ 22 फरवरी को दिल्ली में नए राजनीतिक संगठन या पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि, स्वामी प्रसाद मोर्य ने कहा कि मीडिया से कहा कि हमने कार्यकर्ताओं पर आगे का निर्णय छोड़ दिया है। अब कार्यकर्ता तय करेंगे उन्हें क्या करना है।

नई पार्टी का हो सकता है ऐलान

चर्चा यह भी है कि पीडीए (पिछड़े,



दलित व अल्पसंख्यक) नेताओं को जोड़कर स्वामी प्रसाद मोर्य एक नए राजनीतिक संगठन के साथ सामने आ सकते हैं। इसमें सपा के उनके समर्थक भी शामिल हो सकते हैं।

दिल्ली में स्वामी प्रसाद की रैली

स्वामी प्रसाद मोर्य ने कहा कि 22 फरवरी को दिल्ली में कार्यक्रमों का प्रसाद मोर्य ने कहा कि मीडिया से कहा कि हमने कार्यकर्ताओं पर आगे का निर्णय छोड़ दिया है। अब कार्यकर्ता तय करेंगे उन्हें क्या करना है।

नई पार्टी का हो सकता है ऐलान

चर्चा यह भी है कि पीडीए (पिछड़े,

रहने का औचित्य क्या है?

अखिलेश के वार पर पलटवार

सपा अध्यक्ष अखिलेश के बयान- 'लाभ लेकर तो सभी चले जाते हैं', पर स्वामी प्रसाद ने कहा, 'विपक्ष में रहकर शेखचिल्ली बघारना ठीक नहीं है। उन्होंने जो भी दिया है वह मैं उन्हें सम्मान के साथ वापस कर दूंगा।' स्वामी सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव से भी खासे नाराज दिखे। कहा कि उनकी भाषा में न सम्मान है न बातचीत का संलोक और तरीका आता है।

मोर्य के करीबी पूर्व विधायक बृजेश कुमार ने छोड़ी सपा

स्वामी प्रसाद के करीबी पूर्व विधायक बृजेश कुमार प्रजापति ने सपा से इस्तीफा दे दिया। स्वामी के साथ ही वह भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए थे। सोमवार को पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सवर्णों का हित साधने वाले सपा मुखिया पीडीए के साथ छलावा कर रहे हैं। वह भाजपा से मिले हैं, इसलिए उसे हरा भी नहीं सकते हैं। प्रजापति ने बताया कि दो दिन पहले सपा अध्यक्ष को इस्तीफा भेज दिया था।

विमोचन भी करेंगे और प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का स्वतंत्रता भवन में लगभग एक घंटे का कार्यक्रम बताया जा रहा है।

प्रधानमंत्री काशी में तय तीनों कार्यक्रम में करेंगे संबोधित

प्रधानमंत्री 23 फरवरी को काशी में तय तीन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इन तीनों कार्यक्रम में संबोधन भी होगा। इसमें सबसे पहला स्वतंत्रता भवन, बीएचयू में छात्र, शिक्षक व प्रतिभागियों को, सीरगोवर्धनपुर में संत रविदास मंदिर में दर्शन पूजन के बाद प्रतिमा का अनावरण व लंगर छकने के बाद श्रद्धालुओं को लंगर छकने के बाद एग्रो पार्क स्थित अमूल प्लांट परिसर में 14 हजार करोड़ से अधिक के अमूल समेत 36 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने के बाद जनता को संबोधित करेंगे।

अपराध पर कसेगा शिकंजा

यूपी के इस जिले में अब दो एसपी देहात संभालेंगे कानून व्यवस्था, 10 थानों की मिली जिम्मेदारी



बरेली, 20 फरवरी (एजेंसियां)। जिले में अब दो एसपी देहात की तैनाती हो गई है। गोरखपुर से आए आइपीएस मानुष पारीक को एसपी देहात दक्षिणी बनाया गया है। उन्हें जिले के तीन सर्किलों के 10 थानों दिए गए हैं।

इसी के साथ एसपी देहात मुकेश मिश्र को अब एसपी देहात उत्तरी बनाया गया है। इन्हें भी तीन सर्किलों के 10 थानों को संभालने की जिम्मेदारी मिली हैं। जिससे जिले में होने वाले अपराधों पर अंकुश लग सके। अब तक देहात सभी छह सर्किलों को एसपी देहात मुकेश मिश्र ही देख रहे थे मगर आइपीएस मानुष पारीक के आने के बाद उन्हें आंवला मीरगंज और फरीदपुर सर्किल के 10 थाने दिए गए हैं। इसी के साथ मुकेश मिश्र को बहेड़ी, नवाबगंज और हाइवे सर्किल दिया गया है। बता दें कि, जिले में गौ हत्या, स्मैक तस्करी, भू माफिया जैसे अपराध पूरी तरह से हावी हैं।

महागठबंधन सरकार में आजेडी के इस मंत्री के पास था यह विभाग, अब विजय सिन्हा ने पकड़ लिया 'खेल' !

पटना, 20 फरवरी (एजेंसियां)। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद से अब पहले के किए गए कार्यों की समीक्षा हो रही है। दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन की सरकार के समय कई विभागों में गड़बड़ी हुई है। अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सरकार में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पीएचईडी के टेंडर में गड़बड़ी की आशंका जताई है। महागठबंधन सरकार में आरजेडी के पास यह विभाग था। इसके मंत्री ललित यादव थे। अभी यह



विभाग विजय कुमार सिन्हा के पास है। सिंगल टेंडर रद्द, डबल टेंडर की होगी जांच विजय सिन्हा ने पीएचईडी (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग) में हुए कामकाज की समीक्षा के दौरान गड़बड़ी की आशंका जताई है

रंगटा केस में अब 26 को अगली सुनवाई

सजा के खिलाफ मुख्तार अंसारी ने की है अपील



वाराणसी, 20 फरवरी (एजेंसियां)। कोयला व्यवसायी नंद किशोर रंगटा के भाई महावीर प्रसाद रंगटा को धमकी देने के मामले में मिली सजा के खिलाफ लंबित मुख्तार अंसारी की अपील पर सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए अवनीश गौतम की अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 26 फरवरी की तारीख दी है। बीते साल 15 दिसंबर को अपर सिविल जज प्रथम व एमपी-

एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी उज्ज्वल उपाध्याय ने मामले में मुख्तार को दोषी करार देते हुए साढ़े पांच साल करावास और दस हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई थी।

सजा पर लग गई थी रोक

आदेश के खिलाफ मुख्तार ने जिला जज की अदालत में अपील की। प्रभारी जिला जज अनुतोष कुमार शर्मा ने सजा पर रोक लगाते हुए सुनवाई के लिए पत्रावली विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट भेज दी थी।

1997 को हुआ था नंदकिशोर रंगटा का अपहरण

नंदकिशोर रंगटा का 22 जनवरी 1997 को अपहरण कर लिया गया था। उनकी पत्नी ने सीबीआई जांच के लिए आवेदन किया, जिसे मंजूर कर लिया गया। आरोप है कि पांच नवंबर 1997 को मुख्तार ने फोन पर महावीर रंगटा को मामले की पैरवी न करने की धमकी दी थी। एक दिसंबर 1997 को भेलपुर पुलिस ने मुख्तार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

महंत नृत्य गोपाल दास बोले

राम मंदिर के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का नंबर, होगा आंदोलन



अलीगढ़, 20 फरवरी (एजेंसियां)। श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर जैसे श्रीकृष्ण जन्म भूमि भी निश्चित बनेगी। राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ तीनों समान रूप से देखे जाएंगे और तीनों का उद्धार होगा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि व काशी के लिए आंदोलन होगा। इसकी योजना शीघ्र बनाई जाएगी। गूलर रोड पर कारोवारी मुकेश सिंघल के आवास पर सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के निर्माण के सवाल पर महंत ने कहा कि अयोध्या के बाद अब मथुरा-काशी भी अपनी होगी। हम दोनों जगह के अध्यक्ष हैं।

श्रीकृष्णजन्म भूमि मंदिर भी बनेगा

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर जैसे ही श्रीकृष्ण जन्म भूमि मंदिर भी बनेगा।

अयोध्या की तरह श्रीकृष्ण जन्मभूमि के लिए आंदोलन के सवाल पर कहा कि हां होगा बिल्कुल होगा, जैसे राम जन्मभूमि वैसे कृष्ण जन्मभूमि वैसे ही काशी विश्वनाथ तीनों एक समान रूप से देखे जाएंगे और तीनों का उद्धार होगा। आंदोलन की रूपरेखा के सवाल पर उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, राम जन्मभूमि से जुड़े हुए हैं, सभी लोग मिलकर के कोई योजना बनाएंगे और मंदिर का निर्माण शीघ्र करेंगे। राम मंदिर के बाद कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का नंबर आएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। कहा, दोनों की जोड़ी अच्छा काम कर रही है। एक ओर मोदी हैं तो दूसरी ओर योगी हैं। इनके नेतृत्व में देश और प्रदेश दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है।

बलिया में दर्दनाक घटना, ट्रैक्टर-बाइक में हुई टक्कर, 4 लोगों की मौत, 2 घायल

बलिया, 20 फरवरी (एजेंसियां)। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ट्रैक्टर और बाइक की आमने- सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में दो मजदूर और दो बाइक सवार सहित कुल चार लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा दो अन्य लोग घायल हो गए। घटना जिले के नगरा थाना क्षेत्र के गोठाई तिलकारी गांव के समीप रात लगभग 10:30 बजे ट्रैक्टर और बाइक में आमने सामने की टक्कर हो गई। इस टक्कर में शैलेंद्र राजभर (25), बंटी राजभर (26) , शिवदरस (52) और 55 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसकी पहचान नहीं हो पाई है।

लोकसभा चुनाव से पहले चढ़ा अमेठी का सियासी तापमान राहुल गांधी और स्मृति ईरानी आमने-सामने



अमेठी, 20 फरवरी (एजेंसियां)। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्म हो गई है। मंगलवार अमेठी का राजनीति के दो दिग्गजों का संलाक और तरीका आता है। अगुवाई में पहुंची भारत जोड़ो न्याय यात्रा अकेलवा के खेल मैदान में रात्रि व विश्राम के लिए रुकी है। जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं स्मृति ईरानी आज गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को सुनेंगी।

गांवों में स्मृति ईरानी करेंगी संवाद

केंद्रीय मंत्री व सांसद स्मृति ईरानी अपने चार दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची हैं। वहीं दूसरे दिन मंगलवार को वह

अमेठी व भेटुआ के गांवों में जन संवाद विकास यात्रा में शामिल होंगी, जहां में राजनीति के दो दिग्गजों का संलाक और तरीका आता है। अगुवाई में पहुंची भारत जोड़ो न्याय यात्रा अकेलवा के खेल मैदान में रात्रि व विश्राम के लिए रुकी है। जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं स्मृति ईरानी आज गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को सुनेंगी।

गांवों में स्मृति ईरानी करेंगी संवाद

केंद्रीय मंत्री व सांसद स्मृति ईरानी अपने चार दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची हैं। वहीं दूसरे दिन मंगलवार को वह

भारत को जोड़ने की नहीं, तोड़ने की यात्रा है फतेहपुर में राहुल गांधी पर बोलीं बीजेपी सांसद साध्वी निरंजन ज्योति



फतेहपुर, 20 फरवरी (एजेंसियां)। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने सपा, कांग्रेस और स्वामी प्रसाद मोर्य पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी से विपक्षी दल घबराए हुए हैं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को केंद्रीय मंत्री ने भारत तोड़ो यात्रा बताया। साथ ही कहा कि लोकसभा 2024 के चुनाव में बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। जिले की संसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति सोमवार दोपहर जिला मुख्यालय पहुंची। इस दौरान उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग सेमिनी 4.0 के तहत जिले में निवेश पर चर्चा करते हुए निवेशकों के सहूलियतों पर विशेष फोकस किया।

बीच रास्ते में तूफान ने दी दस्तक, हवा में लटकती फ्लाइट में बैठे यात्रियों की जान



नई दिल्ली, 20 फरवरी (एजेंसियां)। देश का मौसम पल-पल बदल रहा है। एक तरफ कश्मीर में तूफानी हवाएं व बर्फबारी हो रही है तो वहीं बीती रात दिल्ली में बारिश हो गई। ऐसे में इसका असर बोते दिन दिल्ली से श्रीनगर के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो प्लेन पर देखने को मिला। ये फ्लाइट दिल्ली से उड़ा, पर खराब मौसम होने के कारण बीच हवा में फंस गया, जिसके बाद विमान को तेज झटकों का सामना करना पड़ा। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक फ्लाइट हवा में हिलोरें खा रही है और उसमें बैठे पैसेंजर भी डरे हुए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि

फ्लाइट नंबर 6ई6125 ने शाम 5.25 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरी और फिर फ्लाइट का बीच रास्ते में ही भारी बारिश का सामना हुआ। इस दौरान यात्रियों ने गंभीर टर्बुलेंट महसूस किया। वीडियो में भी देखा जा सकता है कि यात्री टर्बुलेंट आने पर अपनी कुर्सियों को मजबूती से पकड़े हुए हैं। साथ ही फ्लाइट लगातार हिल रही है। हालांकि चालक ने फ्लाइट पर काबू पा लिया और श्रीनगर एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराई। इसे लेकर इंडिगो ने भी अपनी सफाई दी है। इंडिगो ने कहा कि दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली इंडिगो की उड़ान 6ई6125 को रास्ते में गंभीर टर्बुलेंट मौसम का सामना करना पड़ा। चालक दल ने सभी ऑपरेशनल प्रोटोकॉल का पालन किया और प्लाइट श्रीनगर में सुरक्षित रूप से उतर गई। खराब मौसम के कारण यात्रियों को हुई इस असुविधा के लिए हमें खेद है।

गुजरात विधानसभा में हंगामा कर रहे कांग्रेस के 10 विधायकों पर एवशन, पूरे दिन के लिए हुए सरपेंड



अहमदाबाद, 20 फरवरी (एजेंसियां)। गुजरात विधानसभा में सदन में नारेबाजी करने पर 10 कांग्रेस विधायकों को पूरे दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। गुजरात विधानसभा का इस समय सत्र चल रहा है, एक महीने तक चलने वाले इस शीतकालीन सत्र में सरकार कई सवालों के जवाब दे रही है, आज कांग्रेस विधायकों ने एक बार फिर सदन में सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने विधानसभा सदन में सरकार के खिलाफ फर्जी घोटाले का मुद्दा उठाया। इसके

अलावा कांग्रेस ने आज सदन से वॉकआउट भी कर दिया है। **गुजरात विधानसभा में हंगामा** शीतकालीन सत्र में आज कांग्रेस विधायकों ने सरकार से सवाल किए और जवाब मांगा, जिसमें 'जालसाजी' का मुद्दा आज विधानसभा में गुंजा। फर्जी दफ्तर, फर्जी पुलिस, फर्जी अफसर के मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया। इस मुद्दे पर आज कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया है। संसदीय मंत्री ऋषिकेश पटेल ने प्रस्ताव रखा कि विपक्ष उपग्रसन पूछ सकता है,

टीचर्स की टाइमिंग पर बिहार विधानसभा में बवाल

केके पाठक पर सीएम नीतीश कुमार बोले- 'नहीं सुनता है तो, अभी लाकर बात करेंगे'

पटना, 20 फरवरी (एजेंसियां)। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ड्यूटी टाइमिंग का मुद्दा भी उठाया गया। इसको लेकर विपक्ष ने हंगामा कर दिया। विपक्ष के विधायकों ने जब शिक्षकों की ड्यूटी टाइमिंग को लेकर सवाल किया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका जवाब देते हुए विपक्ष को आश्वासन दिया कि वो आज ही से शिक्षकों के ड्यूटी टाइमिंग में बदलाव कर देंगे। सीएम

नीतीश कुमार ने कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि शिक्षकों का समय 9 बजे से 5 बजे तक नहीं होना चाहिए, समय 10 बजे से 4 बजे तक होना चाहिए, ये हमने कहा है और इसे अभी नहीं माना गया है। हम आज ही तुरन्त बुलाकर बात करेंगे। उन्होंने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा, आप ही लोग ये देख रहे थे, कहते न कि नहीं सुना। कहते तो हम उसी समय में करते, आज ही हम बुलाकर बात करेंगे। हम भी पढ़ते थे न। 9 बजे से पांच बजे तक शिफ्ट ठीक नहीं है, तुरंत सुधार करवा देते हैं।

नीमच में 498 और मंदसौर में 174 गिद्ध बढ़े, तीन दिवसीय गणना पूरी

मंदसौर, 20 फरवरी (एजेंसियां)। मंदसौर और नीमच जिले में तीन दिवसीय गिद्धों की गणना का काम पूरा हो गया है। गिद्धों को मंदसौर से ज्यादा नीमच रास आया। तीन साल में नीमच में 498 तो मंदसौर में 174 गिद्ध ही बढ़े हैं। नीमच की बात करें तो 3 साल में यहां गिद्धों की संख्या 543 से बढ़कर 1041 तक पहुंच गई है। मंदसौर में 676 से आंकड़ा बढ़कर 850 हो गया। बता दें कि गिद्ध प्रजाति खत्म होने की स्थिति में है। एशिया महाद्वीप में मात्र दो फीसदी गिद्ध ही बचे हैं। संरक्षण के लिए मप्र शासन द्वारा 2015-16 में पहली बार प्रदेश स्तरीय गणना कराई गई थी। संरक्षण संरक्षण में गिद्धों की अहम भूमिका रहती है। विशेषज्ञ केके यादव के अनुसार एशिया महाद्वीप में 98 फीसदी गिद्ध खत्म हो गए हैं। 2015-16 की गणना के बाद 2018-19 एवं 2020-21 में प्रदेशव्यापी गिद्ध गणना कराई गई थी, उसके बाद अब 2024 में गिद्ध गणना की गई है। **मंदसौर की यह रही स्थिति** गांधी सागर, भानपुरा गंgetic क्षेत्र में इस बार 803 गिद्धों की गणना



हुई है। वहीं जिले में इनकी संख्या 850 के करीब है। खास बात यह है कि इस बार 3 दिनों तक चली गिद्धों की गणना में इनके नए आवास का भी पता चला है। वहीं, पिछली बार हुई गणना के मुकाबले इस बार गिद्धों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 2021 में हुई गणना के दौरान विभिन्न प्रजाति के 676 गिद्ध पाए गए थे। जो प्रदेश में दूसरे नंबर पर थे। अब इनकी संख्या बढ़कर 850 हो गई है। **नीमच जिला गिद्धों के लिए सुरक्षित** नीमच जिला गिद्धों के आवास के लिए सुरक्षित साबित हो रहा है। चौथी गिद्ध गणना में नीमच जिले में स्थिति संतोषजनक पाई गई।

लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह

पीएम के सामने पेश किया पत्नी परनीत कौर का रिपोर्ट कार्ड

चंडीगढ़, 20 फरवरी (एजेंसियां)। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। कैप्टन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार, कैप्टन ने अपनी पत्नी परनीत कौर को भाजपा से पटियाला सीट से उतारने को लेकर पीएम मोदी के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश किया है।

परनीत कौर अभी कांग्रेस में हैं,संभावना जताई जा रही है कि वे अगले कुछ दिनों में भाजपा में शामिल हो जाएंगी।

पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आगामी लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में अकाली और भाजपा के गठबंधन के पक्ष में हैं। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर गठबंधन के हक में अपना विचार स्पष्ट किया है। कैप्टन ने एक बयान में कहा कि पंजाब में भाजपा



और अकाली गठबंधन पर उनकी बात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई है। वहीं भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुनील जाखड़ भी गठबंधन के हक में नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रदेशाध्यक्ष के सामने यह चुनौती पेश आ रही है कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेता गठबंधन के हक में नहीं हैं। गठबंधन के विपरीत पक्ष में नेताओं का कहना है कि अकाली दल से गठबंधन का भाजपा को हर बार नुकसान होता है। पार्टी अपने विचारों के साथ लोगों को जोड़ने में असमर्थ

रहती है। इन नेताओं का मानना है कि भाजपा को अगर पंजाब में अपनी जमीन तैयार करनी है तो अकाली से अलग होकर लोगों को अपनी नीतियों और विचार के साथ जोड़ना होगा। बीते दिनों केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन पर संकेत दिए थे। गृहमंत्री ने एक निजी कार्यक्रम में कहा था कि गठबंधन को लेकर कोई अगर बात करेगा तो भाजपा उस पर विचार करेगी। वहीं, कैप्टन ने पंजाब में अकाली दल और भाजपा

के गठबंधन पर जोर दिया है। कैप्टन ने कहा कि पंजाब के कई ऐसे जिले हैं, जहां शहरी इलाके में भाजपा का अच्छा वोट बैंक है। वहीं, पंजाब के पुराने राजनीतिक दल होने के कारण अकाली दल की गांवों में अच्छी पकड़ है, जिसका फायदा चुनाव में मिल सकता है।

कैप्टन ने कहा, मैं किसानों के हक में

पूर्व सीएम कैप्टन ने कहा कि वह हमेशा से किसानों के हक में रहे हैं। उनकी मांगों को लेकर वह जल्द ही प्रधानमंत्री से बात करेंगे। उन्होंने कहा वह जब पंजाब के मुख्यमंत्री थे तब भी वह किसानों को अपना पक्ष रखने के लिए दिल्ली जाने देने के पक्ष में थे। अब भी केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत चल रही है। मीटिंगों का दौर जारी है। उम्मीद है कि जल्द ही यह बात सिरें चढ़ेगी।

'जन विश्वास यात्रा' पर निकले तेजस्वी शाहनवाज हुसैन ने कसा तंज, आरजेडी के साथ कांग्रेस को भी लपेटा

पटना, 20 फरवरी (एजेंसियां)। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मंगलवार से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की है। उनकी इस यात्रा पर एनडीए सरकार में शामिल नेता तंज कस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने मंगलवार को तेजस्वी यादव की इस यात्रा पर तंज कसा। वह भागलपुर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। शाहनवाज हुसैन ने निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी अभी तक घर में ही यात्रा करते थे, अब बाहर निकले हैं। अच्छी बात है। मंत्री रहते वह बिहार के कई जिलों में जा नहीं पाए थे, अब मंत्री से हट गए हैं तो कम से कम दौरा करेंगे तो उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। चुनाव में भी उनको फायदा मिल सकता है। आगे पत्रकारों से बात करते हुए



शाहनवाज हुसैन ने आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोला। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि एनडीए के साथियों के साथ हम लोग 400 सीट से अधिक जीतेंगे। इसमें 10% बिहार का हिस्सा रहेगा। उन्होंने कहा कि पिछली बार आरजेडी जीरो पर आउट हो गई थी और कांग्रेस को किसी तरह एक सीट मिली थी। इस बार दोनों का सुपडा साफ है। प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ कहा कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जीतेंगे और वही प्रधानमंत्री बनेंगे।

चेन्नई, 20 फरवरी (एजेंसियां)। तमिलनाडु के कृषि मंत्री एमआरके पन्नीरसेल्वम ने विधानसभा में 2024-25 के लिए अलग से कृषि बजट पेश किया। इस कृषि बजट में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए गांवों के पोषण के उपायों की घोषणा की गई।

कृषि मंत्री एमआरके पन्नीरसेल्वम ने पेश किया बजट

इसके अलावा तमिलनाडु के कृषि बजट में धान की फसल में रासायनिक उर्वरकों को कम करने के कदमों की घोषणा की गई। साथ ही कृषि बजट में 'एक गांव, एक फसल' योजना का भी एलान किया गया। कृषि मंत्री ने बताया कि वर्ष 2024-2025 के दौरान 'मुख्यमंत्री मन्नुयिर काथु मन्नुयिर कप्पोम' एक नई योजना लागू की जाएगी। इस योजना के लिए 206 करोड़

दिल्ली के सीपी का डीसीपी को सरल आदेश

आपराधिक घटनाओं का वीडियो हुआ वायरल तो अधिकारियों पर गिरेगी गाज



नई दिल्ली, 20 फरवरी (एजेंसियां)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में निगरानी के लिए लगाए गए दो लाख सीसीटीवी कैमरों में आये दिन किसी न किसी आपराधिक घटनाओं की फुटेज कैद हो जाती है। जिसमें कई वारदात सनसनीखेज भी होते हैं। जब किसी सनसनीखेज वारदात का वीडियो वायरल हो जाता है, तो वह पुलिस के लिए परेशानियों का सबब बन जाता है। जिसे रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर

संजय अरोड़ा ने सभी जिला के डीसीपी को सरल निर्देश दिए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा कि ऐसे वीडियो वायरल होने पर डीसीपी और एसएचओ की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने हाल ही में जारी किए गए आदेश में कहा है कि बीते दिनों कई गंभीर अपराधों के सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गए थे।

इससे एक तरफ जहां पीड़ित की निजता खतरे में पड़ती है, तो दूसरी तरफ आरोपी की शिनाख्त परेड (टोआईपी) करना भी मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि वीडियो के लीक होने का सबसे बड़ा कारण है, वारदात के बाद सीसीटीवी फुटेज लेने वाले पुलिसकर्मों द्वारा उस डीवीआर (डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर) को ज्व्त नहीं करना। दिल्ली सीपी संजय अरोड़ा के मुताबिक आपराधिक मामले की जांच कर रहे पुलिसकर्मों फुटेज को विभिन्न वाट्सएप ग्रुप में डालकर आरोपी की पहचान का प्रयास करते हैं।

तमिलनाडु विधानसभा में कृषि बजट पेश 'एक गांव, एक फसल' योजना का एलान



रुपये आवंटित किए गए हैं। **बाजरा के लिए 65.30 करोड़ किए आवंटित** तमिलनाडु सरकार ने कृषि बजट में बाजरा के लिए 65.30 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके

साथ ही बजट में पारंपरिक धान की किस्मों को प्रोत्साहित करने के लिए बीज वितरण की घोषणा की गई है, इससे डायबिटीज से लड़ने में मदद मिलेगी। **कृषि बजट में नई योजना का किया एलान** तमिलनाडु के कृषि मंत्री ने बताया कि कल्यानारिन ऑल विलेज इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मकसद कृषि के प्राथमिक व्यवसाय के रूप में विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भरता के मांडल में बदलना है। 2024-2025 के दौरान इस योजना को 200 करोड़ रुपये के खर्च के साथ 2,482 चयनित ग्राम पंचायतों में लागू किया जाएगा। इसके अलावा इस कृषि बजट में कृषि मंत्री एमआरके पन्नीरसेल्वम ने मिट्टी की उर्वरता सुनिश्चित करने के लिए नई योजना का भी एलान किया है।

टीचर्स की टाइमिंग पर बिहार विधानसभा में बवाल

केके पाठक पर सीएम नीतीश कुमार बोले- 'नहीं सुनता है तो, अभी लाकर बात करेंगे'

पटना, 20 फरवरी (एजेंसियां)। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ड्यूटी टाइमिंग का मुद्दा भी उठाया गया। इसको लेकर विपक्ष ने हंगामा कर दिया। विपक्ष के विधायकों ने जब शिक्षकों की ड्यूटी टाइमिंग को लेकर सवाल किया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका जवाब देते हुए विपक्ष को आश्वासन दिया कि वो आज ही से शिक्षकों के ड्यूटी टाइमिंग में बदलाव कर देंगे। सीएम

नीतीश कुमार ने कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि शिक्षकों का समय 9 बजे से 5 बजे तक नहीं होना चाहिए, समय 10 बजे से 4 बजे तक होना चाहिए, ये हमने कहा है और इसे अभी नहीं माना गया है। हम आज ही तुरन्त बुलाकर बात करेंगे। उन्होंने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा, आप ही लोग ये देख रहे थे, कहते न कि नहीं सुना। कहते तो हम उसी समय में करते, आज ही हम बुलाकर बात करेंगे। हम भी पढ़ते थे न। 9 बजे से पांच बजे तक शिफ्ट ठीक नहीं है, तुरंत सुधार करवा देते हैं।

मौत के बाद भी जयललिता पर लगा था 100 करोड़ का जुर्माना, अब ऐसे चुकाई जाएगी रकम

चेन्नई, 20 फरवरी (एजेंसियां)। बेंगलुरु की 36वीं सिटी सिविल कोर्ट ने सोमवार को घोषणा की कि वह तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता के 27 किलोग्राम सोने और हीरे के आभूषण इस साल 6 और 7 मार्च को उनके राज्य के गृह सचिव को सौंप देगी। उन पर लगाए गए 100 करोड़ रुपये के जुर्माने को चुटाने के लिए उनकी संपत्ति बेचने की अंतिम न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। भ्रष्टाचार के एक मामले में जयललिता को दोषी ठहराए जाने और चार साल की कैद की सजा सुनाए जाने के लगभग 10 साल बाद और उनकी मृत्यु के सात साल से अधिक समय बाद यह



कदम उठाया गया है। विशेष अदालत की मौजूदा कार्यवाही जयललिता की चल और अचल संपत्ति की नीलामी के लिए है। आभूषणों की नीलामी के बाद अदालत उसकी अचल संपत्ति को नीलामी में लाएगी। जुर्माना

वसूलने के लिए जहां 20 किलो आभूषण बेचे या नीलाम किए जाएंगे, वहीं 7 किलो आभूषण से छूट दो जाणी कर्गो किसे उसकी मां से विरासत में मिला हुआ माना जाएगा। अपनी ओर से, कैनफिन होम्स लिमिटेड, जहां जयललिता

का खाता था, ने सोमवार को बेंगलुरु की विशेष अदालत को लगभग 60 लाख रुपये सौंपे। **सोने और हीरे के आभूषण से होगी भरपाई** विशेष न्यायाधीश मोहन ने इस तथ्य को दर्ज करते हुए एक संक्षिप्त आदेश पारित किया कि उनके पहले निर्देश के अनुसार, तमिलनाडु सरकार ने 16 फरवरी को एक जीओ जारी किया था जिसमें राज्य के गृह सचिव और सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी निदेशालय (डीवीएस) के एक पुलिस महानिरीक्षक को बेंगलुरु कोर्ट में आकर सोने और हीरे के आभूषण प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया था।

न्यायाधीश ने कहा कि अधिकारियों को इस अदालत से गहने इकट्ठा करने के लिए एक फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर और आवश्यक सुरक्षा के साथ छह बड़े ट्रंक लाने होंगे। उन्होंने आगे कहा, इसके अलावा, सिटी सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया जाता है कि वे गहने तमिलनाडु राज्य को सौंपने के उद्देश्य से उन दो दिनों में स्थानीय पुलिस के साथ आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करें। **जयललिता पर लगा था 100 करोड़ का जुर्माना** बता दें कि सितंबर 2014 में, विशेष न्यायाधीश जॉन माइकल डी'कुन्हा ने 1,136 पन्नों के फैसले में जयललिता, एन शशिकला, जे

इलावरसी और वीएन सुधाकरन को दोषी ठहराया था और सभी को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई थी। जयललिता पर 100 करोड़ रुपये और बाकी तीनों पर 10-10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। हालांकि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 11 मई, 2015 को उन सभी को बरी कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी, 2017 को न्यायाधीश डी'कुन्हा के आदेश को बहाल कर दिया। चूंकि तब तक जयललिता की मृत्यु हो चुकी थी, शीर्ष अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ आरोप समाप्त हो जाएंगे, मगर अन्य तीन को चार साल की सजा काटनी पड़ी और जुर्माना भरना पड़ा।

हाथी के हमले में मारे गए वायनाड के व्यक्ति को कर्नाटक सरकार के मुआवजा पर भड़की बीजेपी



बेंगलुरु, 20 फरवरी (एजेंसियां)। कर्नाटक में हाथी से कुचल के वायनाड व्यक्ति की मौत के मामले में कर्नाटक सरकार ने परिवार को 15 लाख रुपये का मुआवजा देने का एलान किया है। इस एलान पर बीजेपी ने कड़ा एतराज जताया है और कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी के स्टेट यूनिट अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने इसे टेक्सपेयर के पैसे का गलत इस्तेमाल बताते हुए इसकी मुखाफलत की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं, उन्होंने पीड़ित के परिवार से मिलके सरकार से मदद देने की अपील की थी। मदद का एलान होने के बाद बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस चुनावी फायदे के लिए करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग कर रही है।


राहुल को खुश करने में लगी सरकार

वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने रविवार को हाथी के हमले में मारे जाने वाले व्यक्ति के परिवार को 15 लाख का मुआवजा देने का एलान किया था। जिसके बाद बीजेपी नेता विजयेंद्र ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे कर्नाटक में सूखे और सैकड़ों किसानों की आत्महत्या के बीच कांग्रेस सरकार राज्य की तत्काल

जरूरतों को पूरा करने के बजाय राहुल गांधी को खुश करने में लगी है। विजयेंद्र ने कांग्रेस मंत्रियों की आलोचना करते हुए कहा कि वे राज्य के खजाने से एक-एक रुपया लूटने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखा रहे हैं। **सरकार के खिलाफ बीजेपी का दृवीट** कर्नाटका बीजेपी के एक्स अकाउंट से किए दृवीट में लिखा गया है कि “आखिर मंत्री ईश्वर खंड्रे द्वारा लिखे गए पत्र में कांग्रेस के कलेक्शन एजेंट वेणुगोपाल का नाम क्यों लिया गया है, जो किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है, कलेक्शन मास्टर सीएम सिद्धारमैया को क्यों बताना चाहिए? यह मामला इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस आलाकमान के दखल की वजह से राज्य के करदाताओं का पैसा बर्बाद हो रहा है।” बीजेपी ने सीएम सिद्धारमैया को चुनौती दी है कि अगर आपमें वाकई हिम्मत है तो एआईसीसी कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठें, जो आपको कन्नड़ लोगों के टेक्स के पैसे को अनावश्यक रूप से बर्बाद करने का निर्देश दे रहा है।

क्या हैं मामले ?

30 नवंबर, 2023 को हसन जिले के बेल्तूर तालुक में एक बिना दांत वाले हाथी को पकड़ा गया था। जिसके बाद हाथी को बंदीपूर वन में लेजाया गया था। दो महीने बाद, हाथी को केरल के वायनाड जिले में भटकते हुए देखा गया। 10 फरवरी को केरल के वायनाड जिले में हाथी ने एक व्यक्ति को मार डाला। यह हाथी कर्नाटक से निकला था और मृत व्यक्ति को मुआवजा देने की मांग हुई थी। वन मंत्री खंड्रे ने रविवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से



'डॉन 3' में हुई कियारा आडवाणी की एंट्री : रणवीर सिंह निभाएंगे 'डॉन' का किरदार

आज 'डॉन 3' के मेकर्स ने फिल्म की लीड एक्ट्रेस की अनाउंसमेंट कर दी है। फरहान अख्तर और एक्सेल एंटरटेनमेंट ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। कियारा आडवाणी को टैग करके कैप्शन लिखा- डॉन यूनिवर्स में आपका स्वागत है। **'डॉन 3' में हुई कियारा आडवाणी की एंट्री**

'डॉन' फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म 'डॉन 3' में शाहरुख खान की जगह रणवीर सिंह डॉन का किरदार निभाते नजर आएंगे। वहीं अब मेकर्स ने प्रियंका चोपड़ा की जगह कियारा आडवाणी को फिल्म में रणवीर के अपोजिट कास्ट करने का डिसिजन अनाउंस कर दिया है। इस फिल्म के डायरेक्टर फरहान अख्तर होंगे।

एक इंटरव्यू में फरहान ने कहा कि वो 'डॉन-3' की कहानी को एक दिशा देना चाहते थे। हालांकि इसकी कहानी पर वो और इस सीरीज के पिछले दो पार्ट में लीड एक्टर रहे शाहरुख खान सहमत नहीं थे। यही वजह रही कि फरहान ने फिल्म से शाहरुख को हटाकर रणवीर के साथ काम करने का फैसला किया।

फरहान ने कहा- मैं



शाहरुख खान को रिप्लेस करने

होगा। इस फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद से ही रणवीर सिंह, को लेकर ट्रोल होना शुरू हो गए थे। इससे पहले एक इंटरव्यू में फरहान ने रणवीर की साइड लेते हुए उन्हें सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा था कि रणवीर कमाल हैं और इस पार्ट के लिए बेस्ट हैं। वो भी आप लोगों की तरह ही एक्साइटेड और नर्वस हैं। वो इस किरदार में फिट होने की कोशिश कर रहा है जिसे अमिताभ जी और

शाहरुख खान ने निभाया है। हालांकि रणवीर सिंह ने भी ट्रोल करने वालों को जवाब दिया था। एक इंटरव्यू में शाहरुख खान को रिप्लेस करने के सवाल में रणवीर सिंह ने कहा था- बदलाव तो स्वाभाविक है, सिनेमा के इतिहास में पहले भी ऐसा हो चुका है। जब बॉन्ड फ्रेंचाइजी में डैनियल क्रेग को लाया गया था, तब भी ये चर्चा हुई थी। इसके आगे एक्टर ने डॉन 3 के बारे में कहा कि ये हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है, इसकी कमान मुझे सौंपना एक बड़ी बात है। मैं इसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा।

‘भाई मुस्लिम, मां सिख, पिता ईसाई और पत्नी हिंदू’, विक्रांत मैसी ने धर्म पर दिया बड़ा बयान, बोले- ये इंसान का बनाया



विक्रांत मैसी ने बताया कि उनके भाई ने 17 साल की उम्र में इस्लाम धर्म अपना लिया था। इसके लिए उनके रिश्तेदारों ने बहुत बातें बनाई थीं, लेकिन उनके पिता ने कहा था कि ये उनके बेटे का हक है कि वो जो चाहता है वो करे।

एक्टर विक्रांत मैसी अपनी फिल्म 12th Fail के बाद काफी चर्चा में हैं। फिल्म में उनके अभिनय ने लोगों को उनका दीवाना बना दिया है। हाल ही में एक्टर ने अपने परिवार के बारे में बात की है। उन्होंने बताया कि वह ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिसमें धर्म एक बड़ा मुद्दा नहीं है। उनके घर में अलग-अलग धर्म के लोग रहते हैं।

विक्रांत ने अनफिल्टर्ड बाय समदीश के हालिया एपिसोड में बताया कि उनकी मां सिख, पिता ईसाई, भाई मुस्लिम और पत्नी हिंदू हैं। अपने भाई के बारे में बात करते हुए विक्रांत ने कहा, "मेरे भाई का नाम मोइन है, मैं विक्रांत हूं। आपको लगेगा नाम मोइन

क्यों? उसने इस्लाम अपना लिया था। मेरे परिवार ने उसे धर्म बदलने दिया। उन्होंने कहा, 'बेटा अगर तुम्हें संतुष्टि मिलती है तो जाओ।' उसने 17 साल की उम्र में धर्म बदल लिया था, ये एक बड़ा कदम है। मेरी मां सिख हैं, पिता चर्च जाने वाले क्रिश्चियन हैं, वो हफ्ते में दो बार चर्च जाते हैं। कम उम्र से ही मैंने धर्म और आध्यात्मिकता को लेकर काफी बहस होते देखा है।"

विक्रांत ने आगे कहा, "मेरे रिश्तेदार मेरे पिता से सवाल किया करते थे कि उन्होंने मेरे भाई को अनुमति दे दी। उन्होंने कहा कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा, 'वो मेरा बेटा है, वो बस मुझे जवाब देगा और वो क्या चाहता है ये चुनना उसका अधिकार है।' ये देखने के बाद मैं अपनी खोज में लग गया और सोचने लगा कि वास्तव में धर्म क्या है। इसे इंसानों ने बनाया है।"

विक्रांत मैसी के घर में अलग-अलग धर्म के लोग हैं लेकिन वह दीवाली का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। एक्टर ने कहा कि वह भारतीय हैं और ये सब देखते हुए ही वह बड़े हुए हैं। वह लक्ष्मी पूजा करते हैं। "इसके लिए धार्मिक होना जरूरी नहीं है। मैं नहीं मानता कि अगर मैं लक्ष्मी पूजा करूंगा तो मुझे धन का आशीर्वाद मिलेगा। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं इसे देखते हुए बड़ा हुआ हूं और अब यह मेरा लाइफस्टाइल है। मेरे पिता ऐसा करते हैं। वह सप्ताह में दो बार चर्च जाते हैं, लेकिन वह मेरी मां और मेरी पत्नी के साथ पूजा भी करते हैं। तो, हमारा घर एक खूबसूरत जगह है।" विक्रांत मैसी आखिरी बार फिल्म '12वीं फेल' में नजर आए थे। विधु विनोद चोपड़ा निर्देशित यह फिल्म 2023 की स्लीपर हिट के रूप में उभरी और इसे पिछले साल की बेस्ट फिल्मों में से एक माना गया।

टीवी अभिनेता ऋतुराज सिंह का हुआ निधन, 59 साल की उम्र में ली अंतिम सांस



टीवी अभिनेता ऋतुराज सिंह का निधन हो गया है। उन्होंने टीवी शो 'बनेगी अपनी बात', 'ज्योति', 'हिटरन दीदी', 'शपथ', 'वॉरियर हाई', 'आहत और अदालत', 'दीया और बाती' हम जैसे कई भारतीय टीवी शो में अपनी अलग-अलग भूमिकाएं निभाई थीं। अभिनेता के अचानक निधन की खबर सुनकर फैस काफी शॉक हो गए हैं। अभिनेता की मौत हार्ट अटैक से हुई है।

अनुपमा में आ रहे थे नजर

ऋतुराज सिंह इन दिनों टीवी के लोकप्रिय शो 'अनुपमा' में नजर आ रहे थे। अभिनेता की अचानक निधन की खबर सुनकर टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। ऋतुराज ने कई और लोकप्रिय टीवी शोज में भी काम किया है, जिसमें 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' भी शामिल है। अभिनेता के निजी जीवन की बात करें तो ऋतुराज सिंह का पूरा नाम ऋतुराज सिंह चंद्रावत सिसोदिया था। उनका जन्म कोटा, राजस्थान में एक सिसोदिया राजपूत परिवार में

हुआ था।

अभिनय के लिए आए मुंबई

ऋतुराज सिंह ने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली में पूरी की थी। साल 1993 में मुंबई चले आए और अभिनय को बतौर करियर के रूप में चुना। ऋतुराज अब तक कई हिंदी फिल्मों में अभिनय कर चुके थे, जिनमें एक खेल राजनीति, बद्रीनाथ की दुल्हनिया आदि फिल्में शामिल थीं। ऋतुराज सिंह ने 12 वर्षों तक बेरी जॉन के थिएटर एक्शन ग्रुप के साथ दिल्ली में थिएटर में काम किया था और जी टीवी पर प्रसारित लोकप्रिय हिंदी टीवी गेम शो, तोल मोल के बोल में अभिनय किया था। एक्टर के दोस्त अमित बहल ने बताया, 'हां, कार्डियक अरेस्ट के कारण उनका निधन हो गया। उन्हें कुछ समय से अग्नाशय के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घर लौटने के दौरान कार्डियक कॉम्प्लीकेशन्स हुईं और वह गुजर गए।'

सोशल मीडिया पर फैस दे रहे हैं श्रद्धांजलि

सोशल मीडिया पर फैस के साथ टीवी की दिग्गज हस्तियां श्रद्धांजलि दे रही हैं। एक यूजर ने लिखा, 'सुलझे हुए अभिनेता को ऊपर वाले ने जल्दी बुला लिया।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'भगवान उनकी आत्मा को शांति दें।' एक और यूजर ने लिखा, 'अनुपमा में उनका अभिनय सराहनीय रहा है। मैं उनकी वजह से ही शो देखता था। यह कोई उम्र नहीं थी जाने की।'

इस दिन होगा अंतिम संस्कार

अभिनेता ऋतुराज सिंह के अंतिम दर्शन के लिए बुधवार सुबह 9 बजे से उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर रखा जाएगा। अंतिम संस्कार भी बुधवार को ही सुबह 10.30 बजे मुंबई स्थित ओशिवारा हिंदू स्मशान भूमि पर किया जाएगा।

रवीना टंडन अपनी वेब सीरीज 'कर्मा कॉलिंग' के चलते काफी समय से चर्चा में रहीं। हाल ही एक इंटरव्यू में रवीना ने बेटी राशा थडानी के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि राशा का मां रवीना का रील बनाना पसंद नहीं है। उन्होंने कहा- अगर इंस्टाग्राम की बात करें, तो मैं इसमें बहुत बेकार हूं और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं रील्स बनाते हुए वाकई बहुत गलतियां करती हूं। जब मेरी टीम मुझे रील पोस्ट करने के लिए कहती है, तो मैं कोई मजेदार रील सिलेक्ट करती हूं, क्योंकि मुझे ऐसी ही रील्स पसंद आती हैं।

'जस्ट लुकिंग लाइक आ वॉव' ट्रेंड पर रवीना ने बनाई थी रील

रवीना ने कहा- मैं एक एक्टर हूं, लेकिन ज्यादा कुछ सोचे बिना मैं इस तरह की रील्स बनाती हूं। तब मेरी बेटी राशा मुझसे कहती हैं- मम्मा, आप ये रील्स नहीं बना सकतीं, ये अच्छी नहीं हैं। हालांकि, मुझे रील्स बहुत पसंद आती हैं। रवीना ने आगे बताया कि कुछ



महीने पहले जब 'जस्ट लुकिंग लाइक आ वॉव' ट्रेंड चला था तो मैंने भी इस पर रील बनाई थी।



वो रील राशा को पसंद नहीं आई और उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम से हटाने के लिए कहा। हालांकि, तभी इस ट्रेंड पर दीपिका ने भी रील

बनाई। मैंने राशा को दीपिका का रील बेजा और कहा- देखो, हर कोई इसे बना रहा है, सिर्फ इसलिए कि दीपिका ने इसे बनाया तो ये फेमस है। जब मैंने इसे बनाया था, तो यह खराब था?

रवीना ने कहा- मुझे ऐसी मजेदार रील्स बनाने में बहुत मजा आता है। मैं हमेशा रील्स नहीं बनाती हूं। जब कोई रील इतनी मजेदार हो कि मैं हंसते-हंसते गिर जाऊं, तो मुझे लगता है कि मुझे ये बनाना चाहिए।

रवीना को आखिरी बार वेब सीरीज 'कर्मा कॉलिंग' में देखा गया था और उनकी पाइपलाइन में बिनायि गांधी की घुड़चढ़ी और मल्टी-स्टारर फिल्म 'वेलकम टु द जंगल' जैसे रोमांचक प्रोजेक्ट भी हैं। वहीं राशा थडानी अजय देवगन के भतीजे अमन देवगन के साथ बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं। फिल्म का डायरेक्शन अभिषेक कपूर करेंगे। रिपोर्टर के मुताबिक, ये एक्शन-एडवेंचर फिल्म फरवरी 2024 में रिलीज होगी।

पाक एक्टर ने इंडियन टीवी कंटेंट को बताया घटिया

यासिर बोले- 'पाकिस्तानी ड्रामा सिर्फ हिंदुस्तानियों को पसंद क्योंकि उनके अपने शोज बकवास हैं'

पाकिस्तानी एक्टर और होस्ट यासिर हुसैन ने इंडियन टीवी कंटेंट को लेकर विवादित बयान दिया है। एक इंटरव्यू में इंडियन टीवी शोज पर बात करते हुए यासिर ने कहा कि पाकिस्तान का ड्रामा सिर्फ हिंदुस्तानियों को अच्छा लगता है, जिनके अपने टीवी शोज घटिया हैं।

जावेद इकबाल के एक इंटरव्यू में यासिर पाकिस्तानी इंडस्ट्री पर बात कर रहे थे। यासिर ने कहा, 'हमारी इंडस्ट्री कोई अच्छी इंडस्ट्री नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा इस इंडस्ट्री में आए। मेरा दिल नहीं है कि वो एक्टर बने।' जब यासिर से उनकी इस इच्छा के पीछे की वजह पूछी गई तो वो बोले- 'ये भी कोई काम है? एक्टर का काम है अच्छी एक्टिंग करना। अपनी क्राफ्ट को मनवाना लेकिन मुसलसल आपको बुरा काम ही ऑफर हो रहा है। टीवी में सभी को बुरा ही काम ऑफर हो रहा है। जो ड्रामे हिट हो रहे हैं वो भी कहां अच्छे ड्रामे हैं?' 'हमारा ड्रामा उनके ड्रामे से बेहतर इसलिए वो देखते हैं'

इसके आगे जब यासिर से होस्ट ने कहा कि पाकिस्ताने ड्रामे इंडिया और देश-विदेश में हिट हैं। इस पर यासिर ने कहा, 'इंडिया का अपना ड्रामा देखा है आपने? जिस देश के पास घटिया क्वालिटी के ड्रामे हैं वो हमारे ड्रामे देख रहे हैं। उनके अलावा कौन देख रहा पाकिस्तानी ड्रामे? इंडिया में तो इतेहाई जहर ड्रामा है। हमारा ड्रामा



उसने तो बेहतर है ही इसलिए वो देखते हैं।' **'पठान' को बताया था स्टोरीलैस वीडियो गेम**

आगे यासिर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के ड्रामा की कभी कोई कोरियन या टर्किश तारीफ नहीं करता, क्योंकि वहां के शोज और भी बेहतर हैं। हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब यासिर ने इंडिया पर निशाना साधा है। इससे पहले उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' को एक स्टोरीलैस वीडियो गेम बताया था।



निर्देशक राम गोपाल वर्मा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इन दिनों वह अपनी फिल्मों से ज्यादा विवादों के लिए अधिक जाने जाते हैं। इसे लेकर निर्देशक ने हाल ही में एक बातचीत में खुलकर बात की है। साथ ही बताया कि वह नैतिकता का सम्मान क्यों नहीं करते हैं। उन्होंने बताया कि स्कूली शिक्षा के दौरान ही उनका विद्रोह शुरू हो गया था। निर्देशक ने रंगनायकम्मा द्वारा लिखित रामायण: द पॉइजन्स ट्री का खुलासा किया, जिसने आलोचनात्मक सोच का द्वार खोल दिया।

मैं केवल कानून का पालन करता हूं: राम गोपाल वर्मा



निर्देशक राम गोपाल वर्मा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इन दिनों वह अपनी फिल्मों से ज्यादा विवादों के लिए अधिक जाने जाते हैं। इसे लेकर निर्देशक ने हाल ही में एक बातचीत में खुलकर बात की है। साथ ही बताया कि वह नैतिकता का सम्मान क्यों नहीं करते हैं। उन्होंने बताया कि स्कूली शिक्षा के दौरान ही उनका विद्रोह शुरू हो गया था। निर्देशक ने रंगनायकम्मा द्वारा लिखित रामायण: द पॉइजन्स ट्री का खुलासा किया, जिसने आलोचनात्मक सोच का द्वार खोल दिया।

रामायण को लेकर क्या बोले राम गोपाल वर्मा

राम गोपाल वर्मा ने रामायण: द पॉइजन्स ट्री पर बात करते हुए कहा, 'मुझे लगता है एक तरह से किताब ने उस सोच को प्रेरित किया, क्योंकि रामायण जैसी पूजनीय चीज को उनके द्वारा मार्क्सवादी दृष्टिकोण से समझा जाना अविवशसनीय था। इसलिए मैंने मार्क्सवाद का पहलू नहीं अपनाया, लेकिन तथ्य यह है कि आप चुनौती दे सकते हैं। ऐसा कुछ जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। चीजों को अंकित मूल्य पर न लेने के मामले में यह मेरा पहला प्रभाव था, जिस तरह से वे आपके माता-पिता या आपके शिक्षकों या किसी अन्य द्वारा आपको बताए गए थे।'

नैतिकता का पालन नहीं करते निर्देशक

राम गोपाल वर्मा ने आगे बताया कि इसके बाद उन्होंने और भी ऐसी दार्शनिक किताबें पढ़ीं, जिन्होंने उन्हें विद्रोही बना दिया। उन्होंने कहा, 'मैं एक विद्रोही की तरह रहता हूं। विद्रोही क्या है? विद्रोह कुछ और नहीं बल्कि जो स्वीकृत है उसके विरुद्ध जाना है, लेकिन मैं हमेशा एक ही बात का पालन करूंगा। मैं कानून का पालन करूंगा। मैं नैतिकता का पालन नहीं करता। मैं धर्म का पालन नहीं करता। क्योंकि कानून जरूरी है।'

कहा सिर्फ कानून का पालन करते हैं वह

निर्देशक ने आगे कहा, 'अगर आपको किसी शहर में रहना है तो उसके लिए आपको कुछ बातों का पालन करना जरूरी है। यह समाज से आपको मिलने वाले सभी लाभों के लिए भुगतान करने के लिए एक छोटी सी कीमत है। तो चार पहलुओं में, एकमात्र चीज जिसका मैं पालन करता हूं वह कानून है।'

दिल का दौरा पड़ने के बाद मैं ऑपरेशन थिएटर में हंस रही थी : सुष्मिता सेन

सुष्मिता सेन ने खुलासा किया था कि 'आर्या' सीजन 3 की शूटिंग के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। एक्ट्रेस ने अब इस बात पर आगे कहा कि हार्ट अटैक से ठीक छह महीने पहले उनकी मेडिकल रिपोर्टरस बिल्कुल नॉर्मल थीं।

सुष्मिता सेन ने कर्ली टेल्स के साथ हुए इंटरव्यू के दौरान कहा- अपनी ऑटोइम्यून स्थिति से गुजरते वक्त मुझे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसमें सबसे बड़ी समस्याओं में से एक थी- ब्रेन फॉग। मैं आपसे पूछती हूं- आपका नाम क्या है? और फिर दो सेकंड बाद मैं आपसे दोबारा पूछती हूं- आपका नाम क्या है? एक पब्लिक फिगर के रूप में, ये कुछ ऐसा था जिसने मुझे बहुत परेशान कर दिया था।

सुष्मिता सेन ने इस क्रिस्से के बारे में आगे कहा- मैं जिंदगी का जश्न मनाने वाली इंसान हूं। मैं हमेशा से खुशामिजाज रही हूं। मेरे इस हैप्पी नेचर की वजह से मुझे मुश्किल हालातों से निपटने में मदद मिलती है। आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन मैं ऑपरेशन थिएटर की टेबल पर भी हंस रही थी। मैं अपने डॉक्टर के साथ मजाक कर रही थी। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर था। हम बस एंजियोप्लास्टी होते हुए देख रहे थे। सच कहूं तो मैंने अपने डॉक्टर के साथ वास्तव में बहुत अच्छा समय बिताया था। चर्क फ्रंट की बात करें तो सुष्मिता सेन हाल ही में 'आर्या' सीजन 3 में नजर आई थीं।





फिनटेक कंपनियों के सीईओज से मुलाकात करेंगी वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, पेटेीएम पर एक्शन का असर

नई दिल्ली, 20 फरवरी (एजेंसियां)। रिजर्व बैंक के साथ केंद्र सरकार भी पेटेीएम क्राइसिस पर काफी सीरियस है। पेटेीएम की ओर से नियमों का पालन ना करने करने को लेकर कार्रवाई हुई है। आरबीआई इस मामले में पूरी तरह से सख्त है। सरकार भी इस मामले में कोई कोताही बरतने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर देश की दूसरी फिनटेक कंपनियों में भी काफी डर समा गया है। हर किसी के दिमाग में यही बात घूम रही है कि अब किसी और फिनटेक कंपनी का तो नंबर नहीं है? यही कारण है कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की सभी फिनटेक कंपनियों के हेड के साथ मीटिंग करने का फैसला किया है। इस मीटिंग में आरबीआई के टॉप ऑफिशियल भी मौजूद रहेंगे। यह बैठक फिनटेक उद्योग को आश्वस्त करने के लिए बुलाई गई है कि यह क्षेत्र सरकार के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता बना हुआ है और आरबीआई की कार्रवाई के मद्देनजर किसी भी चिंता को दूर

नहीं हटा प्याज के निर्यात से बैन, महंगाई नहीं छीनेगी आम लोगों का चैन

नई दिल्ली, 20 फरवरी (एजेंसियां)। प्याज की कीमतों में फिर से इजाफा होने से सरकार में हलचल पैदा हो गई है। महंगाई बढी मुश्किल से कंट्रोल में आई है। लोकसभा चुनाव सिर पर है। ऐसे में महंगाई पर सरकार कुछ ज्यादा ही सजग हो गई है। ऐसे में जैसे ही सुबह से प्याज की कीमतों में इजाफे के बाद सामने आई। साथ ही यह कहा गया कि प्याज की कीमतों में इजाफा निर्यात से प्रतिबंध हटाने के बाद देखने को मिला है। उसके बाद सरकार ने तुरंत अपना बयान जारी कर दिया है। एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को जानकारी देते हुए कहा कि प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध पहले से घोषित समय सीमा 31 मार्च तक जारी रहेगा। सरकार की कीमतों को नियंत्रण में रखने और घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने की कोशिश जारी है। सरकार ने आठ दिसंबर 2023 को 31 मार्च तक प्याज



के निर्यात पर रोक लगा दी थी।

निर्यात पर प्रतिबंध नहीं हटाया

उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने मीडिया रिपोर्ट में कहा कि प्याज निर्यात पर प्रतिबंध नहीं हटाया गया है। यह जारी है। मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता घरेलू उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराना है।

बिकने जा रहा अनिल अग्रवाल का स्टील बिजनेस लक्ष्मी मित्तल को अपने पुराने साथी से मिलेगी कड़ी चुनौती

नई दिल्ली, 20 फरवरी (एजेंसियां)।अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता अपना स्टील बिजनस बेचने जा रही है। आर्सेल मित्तल के लक्ष्मी मित्तल ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। लेकिन उन्हें अपने एक पुराने साथी से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। आर्सेलर मित्तल के पूर्व एजीक्यूटिव जय सराफ वेदांता की स्टील कंपनी इंएसएल स्टील के लिए बोली लगाने पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए वह एक कंसोर्टियम मेंबर रहे सराफ ने 2010 में निथिया कैपिटल की स्थापना की थी। वेदांता के मुताबिक इंएसएल स्टील का



वैल्यूएशन 10,000 करोड़ है लेकिन उसे इससे कम पर समझौता करना पड़ सकता है। भारत में लिस्टेड वेदांता लिमिटेड के स्वामित्व वाली इंएसएल स्टील की वर्तमान क्षमता 1.5 मिलियन टन है और उसका लक्ष्य इसे दोगुना करना है। सराफ और निथिया कैपिटल का विभिन्न देशों में मुसीबत में फंसे स्टील संयंत्रों को सफलतापूर्वक चालू करने का ट्रैक रिकॉर्ड है। सराफ का कदम उन्हें अपने पूर्व एम्प्लॉयर के साथ प्रतिस्पर्धा में ला सकता है। आर्सेलर मित्तल भी इंएसएल के

लिए बोली लगाने पर विचार कर रहा है। हालांकि, वैल्यूएशन में अंतर के कारण आर्सेलर मित्तल के साथ चर्चा को रोक दिया गया है। सराफ, निथिया कैपिटल और आर्सेलर मित्तल ने इस बारे में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। **कितना है कर्ज** कर्ज में डूबी वेदांता ने अपने नॉन-कोर एसेट्स को बेचने की घोषणा की है। कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा कि उसके स्टील बिजनस में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने दिलचस्पी मिली है। अगले कुछ महीनों में डील होने की उम्मीद है। सराफ और निथिया के सह-संस्थापक जोहान्स सिटाई पहले मित्तल स्टील में एक साथ काम करते थे। इस दौरान उन्होंने कई देशों में मुसीबत में फंसे स्टील संयंत्रों को सफलतापूर्वक चालू

किया था। 2021 में निथिया कैपिटल ने आईबीसी में उत्तम गैरवला के स्टील बिजनस को खरीदने के लिए कारवेल के साथ भागीदारी की थी। वेदांता ने 2018 में 5,320 करोड़ में इंएसएल स्टील का अधिग्रहण किया और अब इसे बिक्री के लिए रखा है। वेदांता लिमिटेड ने विभिन्न व्यवसायों को अलग करने के लिए छह सूचीबद्ध इकाइयों बनाने की योजना की घोषणा की है। कंपनी पर 20,000 करोड़ का कर्ज है। वेदांता ने इससे पहले ही साल 2022 के अंत में इंएसएल स्टील को बिक्री के लिए रखा था लेकिन उसने इस योजना को छोड़ दिया था। तब यह कहा गया कि कंपनी के टर्नअराउंड का काम पूरा नहीं हुआ है और ज्यादा वैल्यूएशन नहीं मिलेगा।

वेल्थ से ज्यादा जरूरी हेल्थ, 70% लोग टैक्स के लिए नहीं इन कारणों से खरीदते हैं हेल्थ इंश्योरेंस

नई दिल्ली, 20 फरवरी (एजेंसियां)।कोरोना के बाद से लोग अपने हेल्थ को लेकर बेहद जागरूक हो गए है। इसलिए देश में हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों की तादाद बढ़ रही है। आज के दौर में लोग वेल्थ से ज्यादा तरजीह हेल्थ को दे रहे हैं। देश की बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में शामिल आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की हालिया रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 70 फीसदी लोग केवल टैक्स बचाने के लिए नहीं बल्कि हेल्थ की चिंता के कारण बीमा कराते हैं। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक देश में केवल 30 फीसदी लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के प्रमुख कारणों में से एक के रूप में ‘टैक्स छूट/टैक्स रिबेट’ का हवाला दिया। इससे साफ पता लगाता है कि बाकी 70 फीसदी जनता केवल टैक्स बेनिफिट के लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं खरीदते हैं।

टैक्स नहीं ये हैं कारण

इस रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती महिला कामकाजी आबादी के साथ, अगले साल टैक्स छूट के लिए महिलाओं द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने की अधिक संभावना जताई गई है, वहीं हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के इरादे के लिए ‘कैशलेस क्लेम’ प्रमुख कारण के रूप में उभरकर सामने आता है। इसके बाद बचत की सुरक्षा और बढ़ती चिकित्सा लागत का प्रबंधन होता है। इन चीजों को देखकर आज की जनता हेल्थ इंश्योरेंस खरीदती है या खरीदना चाहती है। इस रिपोर्ट में शामिल लोगों में देखा गया है कि उन्होंने कम से कम एक टैक्स-सेविंग में वित्तीय निवेश किया है और अपना या तो हेल्थ इंश्योरेंस कराया है या हेल्थ इंश्योरेंस कराने की प्लानिंग कर रहे है।

टैक्स बेनिफिट की कितनी भूमिका

आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में मार्केटिंग, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और सीएसआर हेड शीना कपूर ने कहा कि टैक्स सर्विस एंड हेल्थ इंश्योरेंस’ पर हमारी हालिया रिपोर्ट कई जरूरी और मूल्यवान जानकारीयों को सामने लाती है। यह साफ है कि हालांकि टैक्स बेनेफिट एक भूमिका निभाते हैं, लेकिन वे ज्यादातर कंज्यूमर द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस में निवेश करने के निर्णय के पीछे एक प्रेरक शक्ति नहीं हैं। रिसर्च सर्वे में भाग लेने वाले सिर्फ 30 फीसदी लोगों ने टैक्स छूट को हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के लिए अपनी प्राथमिक प्रेरणा माना। उनका कहना है कि ज्यादातर ग्राहकों द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के पीछे प्रमुख वजह इसके जरिए मिलने वाली आशवासन और सुरक्षा है, जो महज राजकोषीय लाभ से अधिक है।

बुधवार, 21 फरवरी– 2024 वित्त-वाणिज्य स्वतंत्रवार्ता,हैदराबाद

कर्ज में डूबे अनिल अंबानी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

नई दिल्ली, 20 फरवरी (एजेंसियां)। भारी कर्ज में डूबे बिजनसमैन अनिल अंबानी, वेणुगोपाल धूत, एस्सार ग्रुप के रुइया बंधुओं और भूषण स्टील के भूषण परिवार की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। इनसॉल्वेंसी एंड बैकरोप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (आईबीबीआई) का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से पर्सनल गारंटर्स से रिकवरी में मदद मिलेगी। बोर्ड ने साथ ही ऐसे गारंटर्स को आगाह किया है कि वे मामलों को लंबा खींचने से बचें क्योंकि इससे उनकी देनदारी बढ़ेगी।आईबीबीआई के चेयरमैन रवि मित्तल ने सोमवार को कहा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने पर्सनल गारंटर्स से जुड़े इनसॉल्वेंसी के मामलों की अड़चनों को दूर करके बैंकों को राहत दी है। पर्सनल गारंटर्स के खिलाफ बैंकों की याचिकाओं कई लीगल फोरम्स में लंबित पड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब बैंकों को राहत मिलेगी और मामलों का जल्दी निपटारा हो सकेगा। प्रॉसीडिंग्स का सामना कर रहे पर्सनल गारंटर्स में अनिल अंबानी, वेणुगोपाल धूत, एस्सार समूह के रुइया बंधु और भूषण स्टील का भूषण परिवार जैसे कई जाने-माने नाम शामिल हैं। दिसंबर तक 1.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऋण से जुड़े लगभग 2,500 दिवालिया आवेदन थे। इनमें से 87 आवेदनों को रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) की नियुक्ति से पहले वापस ले लिया गया है या खारिज कर दिया गया है। 1,096 मामलों में आरपी नियुक्त किए गए हैं। आरपी की नियुक्ति के बाद, 296 मामलों को एनसीएलटी में स्वीकार किया गया है। हालांकि, केवल 21 मामलों में रिप्रेमेंट प्लान को मंजूरी मिली है। इससे केवल 91 करोड़ रुपये की राशि वसूली गई है जो दावों का केवल 5.2% है।

कितनी हुई वसूली

आईबीबीआई के आंकड़ों के मुताबिक क्रेडिटर्स एनसीएलटी द्वारा स्वीकार किए गए दावों का केवल 32 फीसदी की वसूली कर पाए हैं। कई मामले 724 दिनों से लंबित हैं जो 270 दिन की डेडलाइन से करीब 2.7 गुना है। मित्तल ने बताया कि ज्यादा मुकदमेबाजी से मामलों में देरी होती है।

बैंकिंग स्टॉक्स में खरीदारी के चलते शानदार तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, लाइफटाइम हाई पर बंद हुआ निफ्टी

नई दिल्ली, 20 फरवरी (एजेंसियां)।भारतीय शेयर बाजार के लिए मंगलवार का दिन बेहद शुभ रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स में खरीदारी की बदीलत बाजार में शानदार तेजी देखी गई। बैंकिंग स्टॉक्स के इंडेक्स निफ्टी बैंक में 560 अंको का उछाल आज के सत्र में रहा है। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में थोड़ी मुनाफावसूली रही। आज का कारोबार खत्म होने पर बीएसई सेंसेक्स 350 अंको के उछाल के साथ 73,057 अंकों पर क्लोज हुआ है। सेंसेक्स फिर से 73,000 के आंकड़े को पार करने में सफल रहा है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 75 अंकों के उछाल के साथ 22,196 अंकों पर बंद हुआ है। निफ्टी अपने ऐतिहासिक हाई पर क्लोज हुआ है। बाजार में तेजी के बावजूद शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के स्टॉक्स का मार्केट वल्यू प्लैटै क्लोज हुआ है। इसकी वजह बैंकिंग छोड़कर दूसरे सेक्टर के स्टॉक में गिरावट है। आज के ट्रेड में बीएसई पर लिस्टेड स्टॉक्स का मार्केट कैप 391.62 लाख करोड़ रुपये पर बंद हुआ है जो पिछले सत्र में 391.69 लाख करोड़ रुपये रहा था। यानि आज के सत्र में निवेशकों की संपत्ति में 7000 करोड़ रुपये की कमी आई है। आज के सत्र में बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी रही, इसके अलावा रियल एस्टेट, मीडिया, एनर्जी, इंफ्रा, हेल्थकेयर और ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है जबकि कंज्यूम इयूबेल्स, मेटल्स, एफएमसीजी, फार्मा, ऑटो और आईटी के स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। आज के कारोबार में स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में 18 स्टॉक्स तेजी के साथ और 12 गिरकर बंद हुए। निफ्टी के 50 शेयरों में 26 शेयर तेजी के साथ और 24 गिरकर बंद हुए।

हैदराबाद में आज का सोने का भाव

हैदराबाद , 20 फरवरी (एजेंसियां) । सोने की दर 24 कैरट के लिए रु 62560 / 10 ग्राम और 22 कैरट के लिए रु 57350/10 ग्राम। हैदराबाद शहर में सोने की दर या कीमत प्रमुख दो कारकों पर निर्भर करती है: पहला सोने की शुद्धता है और दूसरा सोने का वजन है। 22 कैरट और 24 कैरट सोने के लिए विभिन्न वजन श्रेणियां उपलब्ध हैं, यह 8 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलोग्राम और अधिक में उपलब्ध है। यहां आप 24 ग्राम सोने की दर प्रति ग्राम, प्रति 10 ग्राम, प्रति किलोग्राम और प्रति टोला जैसे विभिन्न वजन में सोने की कीमत और चांदी की कीमत की जांच कर सकते हैं। आज के लिए कीमत अपडेट नहीं होने के मामले में हम लास्ट अपडेटेड दिन के प्राइस को आज के गोल्ड प्राइस के रूप में दिखा रहे हैं।

रुप में शुद्ध सोने (24 कैरट) की कीमत

हैदराबाद में 22 कैरट सोने का दाम 1 ग्राम के लिए 6256 (छह हजार दो सौ छप्पन), 22 कैरट सोने का दाम 8 ग्राम के लिए 50048 (पचास हजार अड़तालीस), 22 कैरट सोने का दाम 10 ग्राम के लिए 62560 (बासठ हजार पांच सौ साठ), 22 कैरट सोने का दाम 100 ग्राम के लिए 625600 (छह लाख पच्चीस हजार छह सौ), 22 कैरट सोने का दाम 1 किग्रा के लिए 6256000 (बासठ लाख छप्पन हजार) और 22 कैरट सोने का दाम 1 तोला के लिए 72968.81 (बहतर हजार नौ सौ अड़सठ) ।

चीन ने अपनी डूबती इकोनॉमी को सुधारने के लिए लिया बड़ा फैसला

नई दिल्ली, 20 फरवरी (एजेंसियां)। जहां एक ओर पूरी दुनिया महंगाई से बचने के लिए ब्याज दरों में इजाफा कर रही है। या फिर ऊँची ब्याज दरों को कायम रखते हुए कोई बदलाव नहीं कर रही है। दूसरी तरह चीन ऐसे देशों के मुकाबले उल्टा चलने का प्लान बनाया है। चीन की डूबती इकोनॉमी को किनारे पर लगाने के लिए ब्याज दरों में कटौती करने का फैसला लिया गया है। जी हां, चीन के सेंट्रल बैंक ने मंगलवार को प्रमुख ब्याज दरों में कटौती की है। मौजूदा समय में चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ दुनिया की बाकी इकोनॉमी के मुकाबले काफी धीमी है। जिसे बूस्ट करने के लिए चीन के सेंट्रल बैंक की ओर से फैसला लिया गया है। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने घोषणा की कि पांच साल की लोन प्राइम रेट यानी एलपीआर को 4.2 से घटाकर 3.95 कर दिया गया है।एक साल की एलपीआर, जो कॉर्पोरेट लोन के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करती है, 3.45 फीसदी के साथ बदलाव नहीं किया गया है। एक साल की ब्याज दर आखिरी बार अगस्त में कम की गई थी, जबकि पांच साल की एलपीआर में पहले जून में कम की गई थी। मौजूदा समय में दोनों तरह की लेंडिंग अपने हिस्टोरिकल लोअर लेवल पर हैं।




1990 के बाद सबसे खराब ग्रोथ रेट

चीन के सेंट्रल बैंक की ओर से लिया गया ये फैसला इन इकोनॉमीज के बिल्कुल विपरीत हैं जो महंगाई को कम करने के लिए ब्याज दरों में इजाफा कर रहे हैं। पिछले साल की ग्रोथ रेट 1990 के बाद से सबसे खराब देखने को मिली थी। जिससे 2022 के अंत में सख्त कोविड प्रतिबंधों को खत्म करने के बाद आर्थिक सुधार की उम्मीदें कम हो गईं। अधिकारियों ने इकोनॉमिक ग्रोथ को गति देने के लिए महीनों तक संघर्ष किया है। चीन कई प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहा है, जिसमें लंबे समय तक प्रोपर्टी सेक्टर में संकट, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी और वैश्विक मंदी शामिल हैं, जिसने चीनी प्रोडक्ट्स की डिमांड को कम कर दिया है।

दैनिक पंचांग	
ग्रह गोचर	श्री पिंगल नामक संवत्सर-विक्रम संवत्- 2080
	शक संवत् - 1945 , सूर्य - ज्येष्ठा राशे - ऋतु - वसंत
	महावीर निर्वाण संवत् - 2550 ,हिजरी सन् - 1444
	कलियुग अवधि- 432000
	भोग्य कति वर्ष- 426876
	कलियुग संवत् - 5124 वर्ष
	कल्पारंभ संवत् - 1972949124
ग्रह स्थिति	सृष्टि प्रहारांभ संवत्- 1955885124
सूर्य- कुंभ में कु- 08-17 बजे	दिशाशूल -- उत्तर - धनिया खाकर घर से निकले
चंद्र- मिथुन में मेष- 07-55 बजे	तिथि- द्वादशी • 11- 27 • तक उपरात्र त्रयोदशी
मंगल- मकर में मृग- 09-31 बजे	मास - माघ शुक्ल पक्ष , बुधवार 21 February
बुध- कुंभ में मिथुन- 13-16 बजे	नक्षत्र - पुनर्वसु • 14- 17 • तक उपरात्र पूर्वाषाढा
गुरु- मेष में सिंह- 15-26 बजे	योग - अयुष्मान • 11- 50 • तक उप सौभाग्य
शुक्र- मकर में कन्या- 17-21 बजे	करण - बालव • 11- 27 • तक उप- कौलव
शनि- कुंभ में मीन- 19-47 बजे	विशेष- प्रदोष व्रत
राहु- मीन में कुंभ- 21-63 बजे	
केतु- कन्या में मकर- 02-17 बजे	
विशेष:- राशिफल "हीं के गोचर के आधार पर लिखा गया है।सूक्ष्म फलादेश के लिए जन्म पत्रिका की सूक्ष्म स्थिति जानने के लिए जन्म कृण्णली दिखाना चाहिए।	राहुकाल 12:30 से 13:57 तक
श्री पंचांगुली ज्योतिष केन्द्र Hyd,Sec	
दिन का चौघड़िया	रात का चौघड़िया
लाभ 06:43 - 08:08 शुभ अमृत. 08:08 - 09:35 शुभ काल. 09:35 - 11:03 अशुभ शुभ. 11:03 - 12:30 शुभ रांग 12:30 - 13:57 अशुभ उत्पत्ता 13:57 - 15:24 अशुभ चंचल 15:24 - 16:51 शुभ लाभ 16:51 - 18:16 शुभ	उत्पात 18:16 - 19:51 अशुभ शुभ 19:51 - 21:24 शुभ अमृत 21:24 - 22:57 शुभ चंचल 22:57 - 24:30 शुभ रांग 24:30 - 02:02 अशुभ काल 26:02 - 03:35 अशुभ लाभ 27:35 - 05:08 शुभ उत्पात 29:08 - 06:43 अशुभ

आपका सफल	
 चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, अ,	आपके कार्य क्षेत्र का भाग्य आपके साथ चल रहा है और आपके पास काफी परियोजनायें हैं, फिर भी आप एक नया अवसर आपको मिल सकता है जो की आपके करियर के लिए काफी अच्छा रह सकता है । ये आपके कार्य क्षेत्र में आप पर अधिक जिम्मेदारी डालेगा । आप थोड़ा बदलाव चाहेंगे । आपको ये अवसर कार्यालय के भीतर उपलब्ध हो सकता है । इस के बारे में किसी भी जानकारी के प्रति सचेत रहें ।
आप एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और अपने सपनों का पीछा करने के साथ , आप सुनिश्चित तरीके से अपनी चीजों को रखते हैं । दूसरे इस तरह नहीं है लेकिन दूसरों को ये न बताते और समय पर सब छोड़ दे । इस भावना को त्याग दे अन्यथा लोगों को ये गलतफहमी होगी की आप उनके जीवन में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं ।	 ई, उ, ए, जो, वा, बी, वू, वे, वो,
 का, की, कू, घ, ड, छ, के, को, ह,	आज का दिन अपने प्रयासों को तेज करने और अपनी महत्वाकांक्षायों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सबसे अच्छा समय है । आप अपनी परियोजना के सफलतापूर्वक अंत: के लिए प्रोत्साहित होनामिल सकता है । एक लंबे समय में आपकी प्रयत्न को ये उपेक्षाहित अटकी हुई थी वह आपको मिल सकती है या आपका पद उँचा हो सकता है ।
आज बड़ी और छोटी सफलताएँ आपके कार्य क्षेत्र में दस्तखत दे रही हैं । आपको द्वारा एक समय पर प्रदान की गई सेवाओं को आप अफसोस के साथ प्रदान होना प्रान्त हो सकता है या आपको एक अप्रत्याशित बोझस मिल सकता है । एक लंबे समय से जो पड़ोसित अटकी हुई थी वह आपको मिल सकती है या आपका पद उँचा हो सकता है ।	 ही, हू, ह्रें , हो, डा , डी, डू, डे, डो,
 मा, मी, मू, में, मो, टा, टी, टू, टे,	पिछले काफी समय से जिस अटक के काम को करने की सोच रहे हैं वह आज होने की उम्मीद है । खासी शारीरिक मेहनत करनी पड़ सकती है । आज सामाजिक और वित्तीय दृष्टि से भी लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है । अपने प्रियजनो से किसी भी प्रकार के टकबाव से बचें । सितारे कहते हैं की यदि आज कोई भी टकराव हुआ तो तुरंत बात बद जायेंगी ।
आज जो विलासिता के सामान के व्यवसायों में शामिल हैं, वे लोग आज बहुत लाभ में रहेंगे और साथ ही साथ जो लोग स्वरोपकार में हैं, वे भी अपनी वन में बदलाव कर सकते हैं और साथ ही साथ मन शक्ति राशि को प्राप्त कर सकते हैं । उन लोगों पर ध्यान न दें जो लोग आपको सहानुभूति करने में विफल रहते हैं, वस अपनी विशेषतः कोशल से लाभ प्राप्त करने को इच्छा रखने वाली के महत्व को आप स्वीकार करें ।	 टो, पा, पी, पू, प, ण, ठ, पे, पो,
 रा, री, रू, रे, रो , ता, ती, तू, ते,	आज के दिन आप अपने आप को प्रौद्योगिकी में पिछड़ा हुआ सा महसूस करेंगे । आपको अपने सहकर्मियों से आगे निकलने के लिए कुछ नयी प्रौद्योगिकी एवं कोशल सीखना होगा । आज आप एक योजनाकार और आत्मा मन्त्रमुद्रा में रहेंगे । अपने वरिष्ठ सहकर्मियों से मदद लें ।
आप अपने रास्ते में एक महान अवसर को बाट दे रहे हैं । ये सतह के अवसर के लिए ये सबसे अच्छा समय है । अगर आपने साक्षात्कार दिया है, तो उस मोर्चे पर आज अच्छी खबर मिल सकती है । अत्यन्तित जगहों से नौकरी के अवसर आपको मिल सकते हैं या कुछ अपने संस्कों से भी आप आगे की और बढ़ सकते हैं । आपने कठिन समय के दौरान उत्कृष्ट भावना का परिचय दिया है ।	 तो,ना,नी, ने,नु, नो, या, यी ,यू,
 ये, यो, भा, भी, भू धा , फा, डा, थे	आपने पिछले कुछ दिनों में कुछ अधिक खर्च किया है जिसके आप आदी नहीं हैं । आज सार्वजनिक की अवस्था आप के अंदर रहेगी । आपके दृष्टिकोण में एक उल्लेखनीय बदलाव आणा और आप अपने बचत को खर्च बचाने और धन संयच पर अधिक जोर देंगे , हालांकि आपको अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा की आपका धन बर्बाद और खत्म हो जाएगा ।
कुछ परिवर्तन आपके कार्यालय में होने की संभावना है । ये पहली बार में हेतोराहित लग सकते हैं, लेकिन जल्द ही वे आप के लिए नए अवसर को खोलेंगे । औरकित्त अवसर का लाभ उठाने के लिए आपको सादर और विचारों को छलाना होगा । ऑनियन कार्यालय पड़ेंगे । ये उद्देश्य आपको जॉइन्स परा लग सकता है, लेकिन जो आप करेंगे, उसमें आनंद आणा।	 भो, जा, जी, जो, खू, खे, खो, गा, नी
 गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो, दा,	आपके भावनात्मक व्यवहार की वजह से आपका कार्य गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है । आप इसके आलावा हो चुके हैं और इस से छुटकारा पाने में आपको समय लगता । अपनी इस संवेदनशीलता का आभारपस के अन्य लोगों के प्रति समानुत्पित रहकर इसका लाभ आप उठा सकते हैं । खाली समय में अवल संपर्क में निवेश के लायक जगह आप तलाश सकते हैं ।
अवलोकन और विलेपण को आपकी शक्ति आज अपने चरम पर होगी और आप कार्यो भी नौकरी में हैं और आप इस कोशिश की आवश्यकता है । आपने सरलता आपके कर्म चुमेंगे । वैज्ञानिकों, जनचर्चकों और प्रशंस्तकोंओं से लिए आप एक उपयुक्तो दिन होगा । आज आप रचनात्मक और निष्कट तरीके से अपने कार्यथल पर समयाओं का हल खोजेंगे जो की आपके कार्यथल में सहात जायेंगे ।	 दी, दू, थ, झ, ज, दे, दो, चा, ची
पं।महेशचन्द्र शर्मा 9247132654, 8309517693	



पाकिस्तान में नई सरकार का मामला अटका

इस्लामाबाद/लाहौर, 20 फरवरी (एजेंसियाँ)। पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए चुनाव के नतीजे आए हुए 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिलने की वजह से सरकार नहीं बन सकी है। मंगलवार को नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग (पीएमएल-एन) और आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के बीच अलायंस की उम्मीदें भी टूटती नजर आई। पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से बातचीत में कहा- हमने कभी सरकार बनाने में मदद से इनकार नहीं किया। हम पीएमएल-एन को समर्थन के लिए तैयार हैं। अगर उन्हें सरकार बनानी है तो हमारी शर्तें माननी होंगी, हम उनकी शर्तें क्यों मानें? सरकार बनाने के लिए पीएमएल-एन और पीपीपी समीकरण तैयार कर रही हैं। हालांकि, पांच दौर की बातचीत

हिजाब पहनकर ऑक्सिंग करने वाली ऑस्ट्रेलियाई बॉक्सर टीना रहिमी

मेकअप आर्टिस्ट से बाक्सर बनी, अब ऑलिंपिक में ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करेगी



कैनबरा, 20 फरवरी (एजेंसियाँ)। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रहने वाली टीना रहिमी ने जुलाई में होने वाले पैरिस ओलिंपिक में जगह बना ली हैं। इसी के साथ वह ऑस्ट्रेलिया की ओर से हिजाब पहनकर ओलिंपिक में खेलने वाली पहली बॉक्सरहोगी। टीना ने माता-पिता ईरान के रहने वाले हैं। टीना ने टीना ने मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर करियर शुरू किया था। इसके बाद वजन घटाने के लिए बॉक्सिंग करना शुरू किया था।

अमेरिका ने गाजा में अस्थायी युद्धविराम के लिए यूएन के प्रस्ताव की पैरवी की

यरुशलम, 20 फरवरी (एजेंसियाँ)। हमास और इजराइल के बीच बीते पांच महीने से जंग जारी है। पिछले साल सात अक्टूबर को इजराइल पर हमास के घातक हमले के बाद दोनों पक्ष आमने-सामने हैं। इस लड़ाई के बीच मिस्र से लगी रफा सीमा पर इजराइली रक्षा बल (आईडीएफ) ने कार्रवाई शुरू की है। कार्रवाई यहीं तक सीमित नहीं है बल्कि इजराइल ने आगे जमीनी हमले के भी संकेत दिए हैं। इस बीच, अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव की पैरवी की, जिसमें इजराइल-हमास युद्ध में अस्थायी युद्धविराम का आह्वान किया गया है। इसके अलावा, इसमें रफा में अपने सहयोगी इजराइल द्वारा जमीनी हमले का विरोध भी किया गया है।

रफा सीमा की अहमियत क्या है?

गौरतलब है, इजराइल रफा में जमीनी हमले की योजना बना रहा

तालिबान ने पाकिस्तान को तोड़कर एक और बांग्लादेश बनाने की दी धमकी

इस्लामाबाद, 20 फरवरी (एजेंसियाँ)। पाकिस्तान और तालिबान की सत्ता वाले अफगानिस्तान के बीच लगातार तनाव देखने को मिल रहा है। अमेरिकी सेना जब से अफगानिस्तान से गई है, तब से तालिबान पाकिस्तान पर भड़का हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड का चाहे जितना राग अलाप ले, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सिर्फ फायदे देखे जाएं हैं। अफगानिस्तान अब पाकिस्तान को 1971 की तरह टुकड़े में बांटने की धमकी दे रहा है। जिस पर पाकिस्तानी भड़क गए हैं। उनका कहना है कि भारत में अफगानिस्तान में काफी डेवलपमेंट किया है, जिस कारण तालिबान का रुझान अब भारत की ओर है। सोशल मीडिया पर इस समय एक

बिलावल बोले– नवाज की पार्टी को समर्थन देंगे, लेकिन उन्हें हमारी शर्तें माननी होंगी



अब तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी है।

पीएमएल-एन को रवैया बदलना होगा

बिलावल मंगलवार को एक केस के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कोर्ट से बाहर आने के बाद

उन्होंने सरकार बनाने के मुद्दे पर मीडिया से बातचीत की। पहली बार इस मामले में उनका रुख बदला नजर आया। पीपीपी के चेयरमैन ने कहा- हमने कब कहा कि हमारी पार्टी नवाज शरीफ की पीएमएल-एन को समर्थन नहीं

पुतिन ने किम जोंग उन को गिफ्ट की अपनी कार

बम का भी नहीं होता असर, चलते फिरते टैंक से कम नहीं



धन्यवाद दिया। खबर में कहा गया है कि किम यो जोंग ने कहा कि यह उपहार नेताओं के बीच विशेष व्यक्तिगत संबंध को दर्शाता है। पिछले सितंबर में पुतिन के साथ शिखर वार्ता के लिए किम की रूस यात्रा के बाद से उत्तर कोरिया और यूएन ने अपने सहयोग को अक्षर बढ़ाया है। किम की रूस के मुख्य अंतरिक्ष केंद्र की यात्रा के दौरान पुतिन ने उत्तर कोरियाई नेता को

रूसी पायलट का स्पेन में गोलियों से छलनी शव मिला

कीव, 20 फरवरी (एजेंसियाँ)। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले कई महीनों से जंग जारी है। इस युद्ध में जहां यूक्रेन तवाह हो गया हैं। वहीं रूस को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। मांस्को अभी तक इस युद्ध में अपने बड़ी संख्या में पायलट और लड़ाकू विमान गवां चुका है। इस बीच, रूस के लिए एक बुरी खबर आ रही है। यहां का एक पायलट पिछले साल यूक्रेन गया था, जो हाल ही में स्पेन में एक गैरेज में मरा हुआ मिला। उसका पूरा शरीर गोलियों से छलनी है।

स्पेन की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि स्पेन में एंक्विकोंटे के पास विलाजोयोसा शहर में 13 फरवरी को एक शव मिला, जिसकी पहचान पायलट मैक्सिम कुज्मिनोव के रूप में हुई। उसके पास से यूक्रेन का पासपोर्ट मिला है। हालांकि, वह यहां अलग नाम से रह रहा था। बताया जा रहा कि पिछले साल अगस्त में कुज्मिनोव अपने एमआई-8

भूटान में विवादित सीमा पर गांव बसा रहा चीन

नए घरों में जल्द शिफ्ट होंगे 18 चीनी नागरिक, भूटान सरकार से बातचीत भी जारी चॉशिंगटन/थिम्पू, 20 फरवरी (एजेंसियाँ)। चीन एक तरफ तो भूटान के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए बातचीत कर रहा है, तो दूसरी तरफ विवादित इलाके में गांव भी बसा रहा है। यह दावा हॉन्गकाँग से पब्लिश होने वाले अखबार ‘साउथ चाइना मॉनिंग पोस्ट’ की रिपोर्ट में किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक- इस गांव में कुछ घर बनाए जा चुके हैं और चीन के 18 नागरिकों का पहला बैच जल्द ही इन नए घरों में रहने के आने वाले हैं। अब तक भूटान सरकार की तरफ से इस बारे में ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक- इस हिमालयीन क्षेत्र में चीन बहुत चुपचाप पैर पसार रहा है। यह प्रेसिडेंट शी जिन्पिंग की पॉलिसी का एक और उदाहरण है।

भारत से यूरोप में डीजल सप्लाई 90% घटी

ब्रूसेल्स, 20 फरवरी (एजेंसियाँ)। भारत से यूरोप के लिए डीजल की सप्लाई पिछले 2 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिकी मीडिया ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, लाल सागर में लगातार हो रहे हूतियों के हमलों के बीच अंतरराष्ट्रीय ट्रेड पर गहरा असर पड़ रहा है। एशिया से यूरोपीयन यूनियन (ईयू) और ब्रिटेन जाने वाले कार्गो के शिपिंग चार्ज बढ़ गए हैं। ऐसे में पश्चिमी देशों की जगह एशिया में ही माल भेजना ज्यादा किफायती हो गया है। ब्लूमबर्ग ने वोर्टेक्सा लिमिटेड के डेटा के हवाले से बताया- फरवरी के शुरुआती 2 हफ्तों में भारत से रोज करीब 18 हजार बैरल डीजल यूरोप पहुंचा। यह जनवरी में हुई औसत डिलीवरी से करीब 90% कम है।

स्पार्ट कॉमोडिटीज के विश्लेषक नोएल-बेसविक ने कहा- पूर्वी देश जैसे सिंगापुर में एक्सपोर्ट पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत बेहतर हो गया है। यूरोप

लाल सागर में हूतियों के हमलों से शिपिंग चार्ज बढ़ा, अब एशियाई देशों में हो रही डिलीवरी



या अटलांटिक बेसिन की ओर जाने वाले टैंकरों को हूतियों के डर से दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होकर गुजरना पड़ रहा है। इससे दूरी बढ़ गई है, जिसका सीधा असर लागत पर पड़ता है। साथ ही कई बार उन्हें स्वेज कैनाल का रास्ता अपनाना पड़ता है, जहां जंग के खतरे को देखते हुए इंश्योरेंस चार्ज भी ज्यादा है। इन सब वजहों से शिपिंग चार्ज

बढ़ रहा है। डेटा के मुताबिक, फरवरी में डीजल का सिर्फ 1 शिपमेंट ब्रिटेन पहुंचा। वहीं ईयू में इसकी कोई सप्लाई नहीं हुई। हालांकि, हाल ही में मॉर्लिन सिसिली और मॉर्लिन ला प्लाटा नाम के 2 जहाजों में भारत से बैरल लोड किए गए हैं, जो इस महीने के आखिर तक नीदरलैंड के रॉटरडैम पहुंचेंगे। दूसरी तरफ, फरवरी में भारत से एशियाई देशों

ब्रिटिश उपचुनाव में फिर हारी सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी

आम चुनाव से पहले इस्तीफा दे सकते हैं 100 सांसद, पार्टी में नेतृत्व बदलने की मांग



घोषणा की है कि वे संसद छोड़ रहे हैं और इस साल होने वाले चुनाव नहीं लड़ेंगे।

ब्रिटेन में 2019 के आम चुनावों में तत्कालीन पीएम बोरिस जॉनसन ने पार्टी को बहुमत दिलाया था, लेकिन उसके बाद एक ही कार्यकाल में 10 से ज्यादा उपचुनाव पार्टी हार चुकी है। हाल में, दो सीटों वेलिंगबर्ग और किंसवुड में हार से कंजर्वेटिव सांसद चिंता में पड़ गए हैं। वेलिंगबर्ग में कंजर्वेटिव सांसद पीटर बोन को हटाने के बाद चुनाव हुए थे। यहां लेबर

नवलनी की मौत के लिए पत्नी यूलिया ने ठहराया पुतिन को जिम्मेदार

कहा– अपने देश के लिए लड़ना जारी रखूंगी



हत्या के साथ ही पुतिन ने मुझे, मेरे दिल को और मेरी आत्मा को भी आधा मार दिया है। लेकिन मेरे पास अभी भी आधा हिस्सा बचा हुआ है, जो मुझे यह बताता है कि मुझे अभी हार नहीं मानना है। मैं एलेक्सी के कर्म को जारी रखूंगी और अपने देश के लिए लड़ना जारी रखूंगी।'

यूलिया ने आगे कहा, 'मैं एक स्वतंत्र रूस में रहना चाहती हूं। मैं स्वतंत्र रूस बनाना चाहती हूं। मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे साथ खड़े रहें। मैं आपसे आपके गुस्से को साझा करने के लिए कह

मेक्सिको के जंगल में मिला 1000 साल पुराना रहस्यमय माया शहर

मेक्सिको, 20 फरवरी (एजेंसियाँ)। प्राचीन माया सभ्यता के रहस्य दुनियाभर को आकर्षित करते रहते हैं। यही वजह है कि मेक्सिको के घने जंगलों में इस सभ्यता के अवशेषों की अक्सर खोज होती रहती है। ताजा खोज अभियान के दौरान विशेषज्ञों को माया सभ्यता का एक खोया हुआ शहर मिला है। यह शहर 1000 साल पुराना है और इसमें एक 50 फुट ऊंचा पिरामिड भी मिला है। यही नहीं इसमें एक प्राचीन स्पोर्ट पिच भी मिली है। इस विशाल शहर को देखकर दुनियाभर के विशेषज्ञ हैरान हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस शहर से माया सभ्यता के खाम्बे के बारे कई अहम जानकारी मिल सकती है।

माया शहर में कई पिरामिड जैसी संरचनाएं, भव्य इमारतों के



साथ तीन प्लाजा और कई पत्थर के स्तंभ और बेलनाकार संरचनाएं मिली हैं। इनको देखकर लग रहा है कि यह कभी हजारों लोगों का घर था। अनुमान है कि पिरामिडों में से एक तो 82 फीट ऊंचा था और आपसपास के जंगल के ऊपर दिखाई देता था। इस खोज में कई ऊंची वेदियां और सबसे अहम एक प्राचीन खेल मैदान भी शामिल है जिसका उपयोग धार्मिक समारोहों

के लिए किया जाता था। यह माया बस्ती 250 ईस्वी और 1000 ईस्वी के बीच की है। प्रमुख पुरातत्वविद इवान स्त्रैन ने कहा कि ये शहर समय के साथ खो गए थे और कोई भी उनका सही स्थान नहीं जानता था। इवान ने कहा कि इस स्थल को ओकोमटून नाम दिया गया है, जो इस क्षेत्र के पुरातात्विक मानचित्र पर अंतिम प्रमुख 'ब्लैक होल' था। इस 3,000 से 4,000

में पहुंचे डीजल कार्गो की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इनमें से कुछ शिपमेंट बांग्लादेश और सऊदी अरब भी पहुंचे। पीस विक्टोरिया और ऑरेंज विक्टोरिया जैसे जहाजों पर लदा माल पूर्वी एशिया में डिलीवर किया जा रहा है। ग्लोबल ट्रेड का करीब 12% और 30% कंटेनर ट्रैफिक हर साल लाल सागर के स्वेज कैनाल से होकर गुजरता है।

हूती विद्रोहियों के हमलों से यूरोप और एशिया के बीच मुख्य मार्ग पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार को समस्याओं का सामना करना पड़ा है। भारत का 80% व्यापार समुद्री रास्ते से होता है। वहीं 90% ईंधन भी समुद्री मार्ग से ही आता है। समुद्री रास्ते में हमले से भारत के कारोबार पर सीधा असर पड़ता है। इससे सप्लाई चेन बिगड़ने का खतरा है।

ब्रिटिश उपचुनाव में फिर हारी सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी

आम चुनाव से पहले इस्तीफा दे सकते हैं 100 सांसद, पार्टी में नेतृत्व बदलने की मांग

पार्टी के सांसद जेन किचेन को 45.8% वोट मिले, जो पिछली बार से 28.5% ज्यादा थे। यह सीट 2005 से कंजर्वेटिव पार्टी के पास थी। यही स्थिति किंसवुड की थी, जहां लेबर पार्टी को 44.9% वोट मिले, जो पिछली बार से 16.4% ज्यादा है। ये सीट 2010 से कंजर्वेटिव पार्टी के पास थी। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में सुनक सफल नहीं हुए हैं। इस सत्ताह जारी ताजा आंकड़ों से पता चला है कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 2023 की दूसरी छमाही में मंदी की चपेट में आ गई और केवल 0.1% की वृद्धि हुई। यू.गोव सर्वे में सामने आया है कि सुनक की लोकप्रियता सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। ब्रिटेन के 70% उत्तरदाता उनके कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं।

हमारे पन्ने पर क्लिक करें

हमारे पन्ने पर क्लिक करें

हमारे पन्ने पर क्लिक करें

हमारे पन्ने पर क्लिक करें

हमारे पन्ने पर क्लिक करें

हमारे पन्ने पर क्लिक करें

हमारे पन्ने पर क्लिक करें

हमारे पन्ने पर क्लिक करें

हमारे पन्ने पर क्लिक करें

हमारे पन्ने पर क्लिक करें

हमारे पन्ने पर क्लिक करें

हमारे पन्ने पर क्लिक करें

हमारे पन्ने पर क्लिक करें

हमारे पन्ने पर क्लिक करें

हमारे पन्ने पर क्लिक करें

हमारे पन्ने पर क्लिक करें

हमारे पन्ने पर क्लिक करें

हमारे पन्ने पर क्लिक करें

हमारे पन्ने पर क्लिक करें

हमारे पन्ने पर क्लिक करें

हमारे पन्ने पर क्लिक करें

हमारे पन्ने पर क्लिक करें

हमारे पन्ने पर क्लिक करें

हमारे पन्ने पर क्लिक करें

हमारे पन्ने पर क्लिक करें

हमारे पन्ने पर क्लिक करें

हमारे पन्ने पर क्लिक करें

हमारे पन्ने पर क्लिक करें

हमारे पन्ने पर क्लिक करें

हमारे पन्ने पर क्लिक करें

जल्द मिलेगी सस्ती बिजली

सीएम भजनलाल के प्रयास को मिली सफलता

जयपुर, 20 फरवरी (एजेंसियां)। राजस्थान में जन्द सस्ती बिजली मिलेगी। सीएम भजनलाल शर्मा के प्रयास सफल हो रहे हैं। प्रदेश में तीन हजार मेगावाट सस्ती बिजली का इंतजाम होगा। इसके लिए सोलर और थर्मल पावर प्लांट विकसित करने से लेकर अतिरिक्त कोयले का इंतजाम होगा।

राजस्थान में सस्ती बिजली लाने के लिए राज्य सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। केन्द्र सरकार के सहयोग से राजस्थान में 2500 से 3000 मेगावाट क्षमता तक की सस्ती बिजली मिल सकेगी। इसके लिए राजस्थान में केन्द्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से सोलर पावर प्लांट लगाने की कवायद शुरू हो गई है। साथ ही



कोल इंडिया कंपनी के जरिए अतिरिक्त कोयला भी मिलेगा, जिससे स्थानीय थर्मल पावर प्लांट की क्षमता के अनुसार बिजली उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा। ऐसा होने पर एक्सचेंज से महंगी बिजली खरीदने की नीबत कम आएगी। बताया जा रहा है कि

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर सस्ती बिजली उत्पादन के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली में केन्द्रीय कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी के साथ हुई बैठक में भी सीएम ने अतिरिक्त कोयला आवंटन की जरूरत जताई थी।

राजस्थान में यह है स्थिति
- राजस्थान में 7580 मेगावाट क्षमता के थर्मल पावर प्लांट हैं, लेकिन हर दिन औसतन 5 हजार मेगावाट (65 प्रतिशत) ही बिजली का उत्पादन हो रहा है। जबकि, 6200 मेगावाट से ज्यादा बिजली का उत्पादन किया जा सकता है।

- राज्य विद्युत उत्पादन निगम तय क्षमता तक नियमित बिजली उत्पादन नहीं कर पा रहा है। अतिरिक्त कोयला मिलेगा तो बिजली उत्पादन बढ़ाना ही होगा।

- निर्धारित क्षमता से कम बिजली उत्पादन का असर यह है कि बिजली कंपनियों को महंगी बिजली खरीदने और चहेती निजी उत्पादन कंपनियों को उपकृत करने का मौका मिल रहा है।

चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पर नया अपडेट

भजनलाल सरकार के सर्कुलर ने सब बदल दिया

जयपुर, 20 फरवरी (एजेंसियां)। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पर नया अपडेट। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर भजनलाल सरकार ने एक नया सर्कुलर जारी किया है। इस नए सर्कुलर में क्या आदेश है जानिए।

राजस्थान की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पर नया अपडेट। अशोक गहलोत की 'चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना' का नाम बदल दिया गया है। इस योजना के नाम बदलने को लेकर 19 फरवरी को एक सर्कुलर जारी किया गया। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना अब अपने नए नाम से पुकारी जाएगी। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को नया नाम अब

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना होगा। राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेन्स एजेंसी ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें लिखा था कि बजट घोषणा 2024-25 की अनुपालना में सुबे में वर्तमान में संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम 'मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना' करने का निर्णय लिया गया है। अतः निर्णय की पालना करते हुए योजना का नाम ऑनलाइन पोर्टल तथा समस्त प्रिंटिंग सामग्री/ हॉर्डिंग/ बैनर/ प्रचार-प्रसार सामग्री/ अस्पतालों के काउंटर/ प्रांगण इत्यादि पर तदनुसार परिवर्तित कर 'मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना' लिखवाया जाना सुनिश्चित करें। भविष्य में किए जाने वाले

समस्त पत्राचार में भी 'मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना' नाम का उपयोग किया जाए। योजना की शेष शर्तें एवं प्रावधान यथावत रहेंगे।

योजना बंद नहीं की सिर्फ नाम बदला

बताया जा रहा है राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार से लगातार अनुरोध किया था कि इस योजना को बंद न किया जाए। चाहे इसका नाम बदल दिया जाए। तो भजनलाल सरकार ने अशोक गहलोत के अनुरोध का सम्मान करते हुए योजना को बंद नहीं किया है पर इसका नाम बदल दिया है। जिसका सर्कुलर जारी किया गया था।

बांसवाड़ा, 20 फरवरी (एजेंसियां)। दशकों से कांग्रेस के परचम तले राजनीति की पटकथा लिखने वाले पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीया कांग्रेस का दामन छोड़ अब बीजेपी के पाले में आ चुके हैं। बीजेपी का संग थापने के साथ ही वागड़ की राजनीति के समीकरण भी बदलते नजर आ रहे हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो यदि भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में महेंद्रजीत मालवीया को टिकट देती है, इसका असर कांग्रेस और वागड़ में उभर रहे छोटे दलों पर भर भी पड़ेगा। मालवीया के भाजपा में आने के बाद दोनों दलों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। एक ओर जहां बीजेपी ने कार्यालय के बाहर आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। वहीं,

'धर्मांतरण के मामले राजस्थान के लिए चिंताजनक'

स्पीकर देवनानी बोले- सरकार को कड़े कानून बनाना चाहिए

भरतपुर, 20 फरवरी (एजेंसियां)। भरतपुर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा, हर विधायक का लोकतांत्रिक अधिकार है कि वह किस पार्टी में रहना पसंद करता है। मालवीय ने अपना त्याग पत्र मेरे पास भिजवा दिया है। देवनानी ने धर्मांतरण मामले कहा, कानून बनाया जाना चाहिए।

भरतपुर में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। जहां पर उन्होंने धर्म परिवर्तन मामले को लेकर कहा कि इस क्षेत्र व राजस्थान के लिए धर्म परिवर्तन चिंताजनक है। हमारे समय में हुआ था, तब लगभग कानून भी बनाने का निर्णय लिया गया था। लेकिन तब सरकार चली गई और पांच साल हम कुछ नहीं



कर पाए। अब राज्य सरकार इस विषय की गंभीरता को देखते हुए जल्द से जल्द ऐसा कोई कानून लाए, जिससे यह चीज रिपीट न हो।

देवनानी ने कहा, धर्म परिवर्तन समाज में अभिशाप है और जिसके कारण लोग लालच देकर गरीब लोगों का धर्म परिवर्तन करवाते हैं। यह वैधानिक भी है और अनैतिक

भी है और गैर कानूनी है, इसको रोकना चाहिए। खासकर भरतपुर राजस्थान का पूर्वी द्वार है। इस मौके पर उन्होंने कि सा न आंदोलन को लेकर कहा कि केंद्र सरकार और

उनके बीच वार्ता चल रही है। जल्द ही इसका समाधान होगा। कांग्रेस के नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय के इस्तीफा को लेकर कहा कि महेंद्र का इस्तीफा मेरे कार्यालय पहुंच गया है। इसकी मैं घोषणा कर सकता हूं। हालांकि, हर विधायक का लोकतांत्रिक अधिकार है कि वह किसी भी पार्टी को

ज्वाइन कर सकता है। कभी-कभी उसकी पार्टी से मोह भंग होता है तो दूसरी पार्टी में जाता है। लेकिन जो कुछ भी संसद के विधानसभाओं की जो नियमावली है, उसके तहत कोई भी विधायक दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकता है। उसके अपने विधायक पद से इस्तीफा देना होता है। उन्होंने कहा, शुक्रवार को इस्तीफा भेजा है। अभी स्वीकार नहीं किया है, उनसे मिलकर बातचीत होगी और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद वह अपना त्यागपत्र देंगे तो स्वीकार करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भरतपुर पहुंचे थे। जहां पर उन्होंने भरतपुर थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर महाराजा सूरजमल की मूर्ति पर पुष्पोंजलि अर्पित की और कार्यक्रम में भाग लिया।

महेंद्रजीत सिंह मालवीया के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने के बाद

राजनीति के समीकरण भी बदलते नजर आ रहे हैं



कांग्रेस नई रणनीति बनाने पर विचार करने की बात भी कर रही है। कुछ नेताओं में नाराजगी में साफ नजर आई।

संभावना जताई जा रही है कि मालवीया के बीजेपी में जाने के बाद 50 से अधिक कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि जल्द ही बीजेपी शामिल हो सकते हैं। हालांकि कांग्रेस पदाधिकारी

फिलहाल इसे सिर से नकार रहे हैं। वहीं, बीजेपी पदाधिकारी जल्द ही तस्वीर बदलने की बात कह रही है। कांग्रेस इबतला जहाज है। मालवीया कद्दावर नेता हैं, जो पार्टी और मोदी जी के विजन देख पार्टी में शामिल हुए। इससे हमारा जनाधार बढ़ेगा। कांग्रेस के कई जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता बीजेपी में जल्द शामिल होंगे। --

क्या पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा भी होंगे बीजेपी में शामिल ?

जयपुर, 20 फरवरी (एजेंसियां)। महेंद्रजीत सिंह मालवीया के कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने के बाद कई नेताओं के भी इसी राह पर जाने की अटकलें लग रही हैं। इस बीच पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा ने खुद को लेकर स्थिति साफ कर दी है।

राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उनकी चर्चा की वजह बनी हैं उनकी बेबाक प्रतिक्रियाएं। अक्सर सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात लोगों तक पहुंचाने वाले शर्मा की



हालिया शेरार हुई प्रतिक्रियाएं अपनी ही कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली पर निशाना साधते हुए दी गई हैं।

खासतौर से कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक महेंद्रजीत सिंह मालवीया के भाजपा में शामिल होने को लेकर शर्मा ने एक ऐसी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने बगैर नाम लिए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट तक का उदाहरण दे डाला है। वहीं एक अलग प्रतिक्रिया में स्वयं के दल-बदल को लेकर भी सफाई दी है।

'जिनको कहा नकारा- निकम्मा...'

पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा ने

महेन्द्रजीत सिंह मालवीया के कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने का हवाला देते हुए अपनी बात साझा की।

इसमें उन्होंने गाहे-बगाहे पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का भी जिक्र कर डाला, लेकिन सिर्फ इशारों-इशारों में, बिना उनका नाम लिए। शर्मा ने लिखा, "जिनको निकम्मा-नकारा, गद्दार कहा वो आज भी मजबूती से साथ खड़े हैं। वहीं जो खासमखास बताए जाते थे वो पाला बदल चुके हैं। राजनीति में जो जाताया जाए वो होता नहीं, जो वास्तव में होता है वो दिखाता नहीं...!"

राजस्थान में बजरी माफिया का आतंक दिनदहाड़े एक युवक पर चढ़ाया ट्रैक्टर

भरतपुर, 20 फरवरी (एजेंसियां)। कॉलोनी निवासी लोकेश ने बताया कि सुबह 8:30 बजे कॉलोनी में बजरी लेकर के दो ट्रैक्टर आए थे। जिनके द्वारा बैक करते समय युवक के नाली के पाइप को तोड़ दिया गया। जब युवक के द्वारा ट्रैक्टर चालक का विरोध किया तो गोसाईं ट्रैक्टर चालक में युवक पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। एक तरफ राजस्थान सरकार अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है तो दूसरी ओर भरतपुर शहर में अवैध बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। मंगलवार सुबह मथुरा गेट थाना क्षेत्र के बी नारायण गेट निवासी एक युवक को अवैध बजरी माफियाओं द्वारा ट्रैक्टर ट्राली से दौंर कर मौत के घाट उतार दिया।

जानकारी के मुताबिक सुबह साढ़े 8 बजे अवैध बजरी माफियाओं द्वारा बी नारायण गेट स्थित एक मकान निर्माण के लिए बजरी लेकर आए थे। इस दौरान कॉलोनी में उपेंद्र नामक युवक की ट्रैक्टर ट्राली से नाली टूट गई. उपेंद्र नामक युवक के द्वारा ट्रैक्टर चालक से नोक झोंक हुई और नाली टूटने का विरोध किया. इससे नाराज ट्रैक्टर चालक के द्वारा युवक पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया और युवक गंभीर रूप से

घायल हो गया। घायल युवक को परिजन जिला आरबीएम अस्पताल ले गए जहां चिकित्साकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. परिजनों का आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बाद भी पुलिस घटना स्थल पर लैट पहुंची. जानकारी के मुताबिक उपेंद्र की उम्र 22 साल है और वह कोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहा था. इस घटना के बाद कॉलोनी में भीड़ एकत्रित हो गई. लोगों के द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है।

कॉलोनी निवासी लोकेश ने बताया कि सुबह 8:30 बजे कॉलोनी में बजरी लेकर के दो ट्रैक्टर आए थे. जिनके द्वारा बैक करते समय युवक के नाली के पाइप को तोड़ दिया गया. जब युवक के द्वारा ट्रैक्टर चालक का विरोध किया तो गोसाईं ट्रैक्टर चालक में युवक पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया. युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और परिजन उसे आरबीएम अस्पताल लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर चालक के द्वारा ट्रैक्टर चालक से नोक झोंक हुआ था वही व अवैध बजरी माफियाओं द्वारा भी नाली टूटने का विरोध किया. इससे नाराज ट्रैक्टर चालक के द्वारा युवक पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया और युवक गंभीर रूप से

एसएन मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में इंटरन स्टूडेंट की मौत से हड़कंप

जोधपुर, 20 फरवरी (एजेंसियां)। राजस्थान के जोधपुर शहर में स्थित डॉ सम्पूर्णानंद मेडिकल कॉलेज के इंटरन स्टूडेंट हॉस्टल में मौत हो गई. जयपुर के रामनगर, सोढाला निवासी हर्ष टॉक 2016 बैच का स्टूडेंट था. जानकारी के अनुसार, हर्ष के पिता नन्द किशोर टॉक लगातार उसे फोन कर रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं आने पर उन्होंने हर्ष के साथियों को फोन किया.

इसके बाद हर्ष टॉक के कमरे पर उसके साथी पहुंचे. उन्होंने हर्ष के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन काफी देर बाद भी दरवाजा नहीं खुला, और अंदर से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई. इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर गेट को तोड़ दिया. जब दरवाजा खुला तो देखा कि हर्ष टॉक बेड पर पड़ा है, और उसके नाक से खून निकल रहा है. जिस तरह से हर्ष का शव पड़ा था, ऐसा लग रहा था की संभवतः नशीले पदार्थ की ओवर डोज के कारण यह सब कुछ हुआ है. लेकिन विस्तृत रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगी. हर्ष टॉक के एन चेस्ट हॉस्पिटल में बने इंटर हॉस्टल में रह रहा था. वहां मौजूद स्टूडेंट और फैकल्टी जब हर्ष के रूम के अंदर गए तो वहां पर उन्होंने हर्ष टॉक को बेड पर पड़ा देखा था. वहीं उल्टी और नाक से खून आना और उसके शरीर से बदनू भी आने लगी थी. हर्ष को देखकर ऐसा लग रहा था कि 10 से 12 घंटे पहले उसकी मौत हो चुकी थी.

हर्ष की अगर बात की जाए तो मेडिकल की पढ़ाई के मामले व एक्वेज स्टूडेंट था और वह 2 साल की रिमांडेड बैच में था. देर रात को स्टूडेंट्स ने हॉस्टल वार्डन को फोन किया. जिसके बाद प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर रंजीत देसाई, अतिरिक्त प्राचार्य डॉक्टर अरुण वैश्य, डॉ राजकुमार राठौर सहित वार्डन अशोक कुमार मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी.

राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की उठी मांग

जेएनवीयू के प्रोफेसर ने कहा- 'यह पीएम मोदी की इच्छा पर है निर्भर'

जयपुर, 20 फरवरी (एजेंसियां)। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने और राजस्थान में स्थानीय भाषा का दर्जा देने की मांग एक बार फिर मुखर हो रही है. 21 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व मायड़ भाषा दिवस से पहले राजस्थानी भाषा को मान्यता देने का मुद्दा उठा. जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के राजस्थानी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. गज सिंह राजपुरोहित ने एनडीटीवी से खास बातचीत की. डॉ. गजसिंह राजपुरोहित ने कहा कि राजस्थानी भाषा को मान्यता देने का मुद्दा देश की आजादी से पहले वर्ष 1944 से ठाकुर राम सिंह तंवर के नेतृत्व में दिनाजपुर (वर्तमान में बंगलादेश में है) में राजस्थानी भाषा का पहला अधिवेशन हुआ था. इस अधिवेशन में सबसे पहले राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता देने का मुद्दा रखा गया और उसके बाद पिछले 76 वर्षों से राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता और राजस्थान में इससे स्थानीय भाषा का दर्जा देने को लेकर आंदोलन चल रहा है. लेकिन यह दुर्भाग्य है की आज



वर्तमान 2024 में भी यह मुद्दा उसी स्थिति में है.

कई दिग्गजों ने उठाई आवाज
राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए शुरू किए गए इन आंदोलन में कहीं बड़े आंदोलन भी हुई जिसमें जोधपुर के पहले महाराजा गजसिंह से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और वर्तमान के केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ ही राजस्थान के कई सांसद और नेता इस आंदोलन से जुड़े थे. वर्तमान में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी जब राजसमंद से सांसद थी उस दौरान भी इन्होंने लोकसभा में एक

व्यक्तिगत बिल पेश कर राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने की मांग रखी थी. **'मान्यता की जगह मिला आशवासन'** डॉ. गजसिंह राजपुरोहित ने कहा कि '25 अगस्त 2003 को जब राजस्थान की विधानसभा से सर्वसम्मति से राजस्थानी भाषा को

संवैधानिक मान्यता देने का प्रस्ताव पास कर केंद्र को भेजा गया था लेकिन आज भी वह विधेयक केंद्र में ज्यो-के-त्यो लंबित पड़ा है. इसमें सबसे बड़ी बात है कि वर्ष 2003 से लेकर 2013 तक राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की पर भी अगर किसी नेताओं ने की है तो उसमें बीजेपी के कई गद्दार नेता भी शामिल रहें. हालांकि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तब से आज वर्तमान तक मात्र आशवासन ही मिल रहा है. वर्ष 2016 में भी दिल्ली के जंतर मंतर पर राजस्थानी भाषा को लेकर एक बड़ा आंदोलन भी किया गया था, जिसमें राजस्थान

के 15 से अधिक सांसद और 40 से अधिक विधायक भी सम्मिलित हुए थे और उनका एक ही होता था कि राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दी जाए. उस समय के तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर उन्हें आशवासन भी दिया था कि जल्द ही राजस्थानी भाषा को मान्यता दी जाएगी. यह दुर्भाग्य की बात है कि आज भी पहली बार विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को घोषित किया. वर्ष 1999 में इसकी घोषणा हुई और वर्ष 2000 में पहली बार यह मनाया गया और इसके बाद वर्ष 2008 में यूनेस्को ने विश्व मातृभाषा दिवस के साथ ही पहली बार विश्व मातृभाषा वर्ष भी मनाया गया. जहां पूरे वर्ष पर विभिन्न स्थानीय क्षेत्र की मातृभाषा के संबंधित कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और सिर्फ यूनेस्को ही नहीं हमारा भारतीय संविधान भी यह कहता है कि अगर किसी स्थानीय भाषा पूरे मानकों को पूरा करते हो तो उन्हें संवैधानिक मान्यता दी जा सकती है.

बस के टायर में हवा भरते समय हुआ बड़ा हादसा, चालक की हुई मौके पर मौत

अजमेर, 20 फरवरी (एजेंसियां)। हादसा मंगलवार सवेरे उस समय हुआ, जब पंचर बनाने के बाद बस चालक टायर में हवा भर रहा था। एकाएक टायर में ब्लास्ट हो गया। इससे चालक करीब 8 फीट हवा में उछल गया। उसके शव के चीथड़े-चीथड़े बिखर गए। हादसे की सूचना मिलने पर रूपनगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को रूपनगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में पहुंचाया। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है। रूपनगढ़ थाने के एसएसआई गोपाराम ने बताया कि सूरत से गांधीधाम के बीच रजवाड़ी ट्रैवलस बस चलती है। बस के चालक सीकर जिले में लोसल के नजदीक गणेशपुरा गांव के बौदुराम (38) ने पंचर बनवाने के लिए वाहन को परवतसर मार्ग पर गुजराती होस्टल पर रोका था। चालक पंचर बनवा रहा था। पंचर बनाने के बाद उसमें हवा भरते समय एकाएक टायर में ब्लास्ट हो गया। इससे चालक गणेशपुरा गांव के बौदुराम (38) पुत्र भूपाराम जाट करीब 8 फीट तक हवा में उछल गया। ब्लास्ट के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई और शव चीथड़ों में बिखर गया। बस का परिचालक शव को ट्रैम्पो में डालकर रूपनगढ़ सीएचसी पहुंचा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक चालक के परिजनों को सूचना दी। परिजनों के यहां पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम कर उनके सुपुर्द किया जाएगा।

इंडियन डेंटल एसोसिएशन का ओरल कैंसर पब्लिक डेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप शुरू



हैदराबाद, 20 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। आईडीए (इंडियन डेंटल एसोसिएशन) अपनी डेक्कन शाखा के माध्यम से; एक राष्ट्रीय सीएसआर गतिविधि पहल के एक भाग के रूप में, 23 फरवरी तक सुबह 9.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच एपीएमसी (कृषि उपज विपणन समिति), मलकपेट, हैदराबाद में एक मौखिक कैंसर जांच, स्क्रीनिंग, जागरूकता, जांच शिविर की मेजबानी कर रहा है। स्क्रीनिंग शिविर में सड़े हुए दांतों, गायब दांतों, भरे हुए दांतों और अन्य विविध दंत और मसूड़ों की बीमारियों के लिए सामान्य दंत स्वास्थ्य जांच की जा रही है। शिविर का उद्घाटन आज किया गया। शिविर का उद्देश्य प्रारंभिक अवस्था में मुंह के कैंसर का पता लगाना और मुंह के कैंसर पर

ग्रीवा और बड़ी आंत के कैंसर में जीवनशैली से जुड़े गंभीर जोखिम हैं। जो लोग तम्बाकू उत्पादों का उपयोग करते हैं, सिगरेट, पाइप, हुका पीते हैं या गुटका, नसवार आदि चबाते हैं, उनमें फेफड़े या मौखिक गुहा के कैंसर होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तंबाकू के साथ शराब का सेवन करने से मुंह के कैंसर का खतरा और भी बढ़ जाता है। मुंह का कैंसर विश्व में सबसे अधिक होने वाला कैंसर है। सबसे आम कारणों में खराब मौखिक स्वच्छता के साथ-साथ तंबाकू, सुपारी, शराब का सेवन शामिल है।

डेंटल सर्जन मुंह के कैंसर के निदान और उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुंह के कैंसर के रोगियों के परिणामों में सुधार के लिए शीघ्र पता लगाना और उपचार महत्वपूर्ण है। डॉ. श्रीकांत का कहना है कि मुंह के कैंसर का अगर शुरुआती चरण में पता चल जाए और इलाज किया जाए तो इसे ठीक किया जा सकता है, दंत चिकित्सक अक्सर मुंह के कैंसर को शुरुआती चरण में ही ढूंढ लेते हैं क्योंकि मुंह और होंठों की जांच करना आसान होता है।

अकुश लगाना है। आईडीए और पनानिया इस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज के ओरल और मैक्सिलोफेशियल विशेषज्ञों सहित पंद्रह डेंटल सर्जन ओरल कैंसर की जांच, स्क्रीनिंग, जागरूकता, जांच करेंगे, जहां संदिग्ध ओरल कैंसर घाव के मामलों में आवश्यक बायोप्सी भी ली जाएगी। आईडीए, डेक्कन शाखा के सचिव डॉ. ए श्रीकांत के अनुसार; तेलंगाना में मुंह, सिर और गर्दन के कैंसर का प्रतिशत 16% है, जो फेफड़ों के कैंसर के मामलों की संख्या को पार करते हुए राष्ट्रीय औसत 12% से अधिक है। सिर, गर्दन और मुंह का कैंसर अब तेलंगाना में पुरुषों में नंबर एक कैंसर बन गया है। उदाहरण के लिए, भारत में शीर्ष 5 कैंसरों में फेफड़े, मौखिक गुहा, गर्भाशय

मंत्री सीताक्का ने पगिड्डा राजू पुजारूला विद्या केन्द्र का उद्घाटन किया



हैदराबाद , 20 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। पंचायत राज, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री दानराजी अनसुया सीताक्का जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी के साथ मंगलवार को मुलुगु जिले के तडवई मंडल में पगिड्डा राजू पुजारूला विद्या केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री ने बताया कि 25 लाख रुपये के फंड से एक नये सेंटर का निर्माण किया गया है। आज शाम को महबूबाबाद जिले के मुलुगु निर्वाचन क्षेत्र के पोगुगोडला गांव से पुजारी पेनाका कबीले के पुजारियों की आदिवासी सांस्कृतिक परंपराओं के बीच काली बटना पगिडिडा राजू पाडिगे के साथ मेडारम जाएंगे। इस अवसर पर, मुलुगु के गोविंदराओपेट मंडल के लक्ष्मीपुरम गांव में जिले में सरकार ने 25 लाख रुपये के फंड से पुजारियों के लिए सेंटर बनाया है। उन्होंने कहा कि पुजारी आज रात अवकाश केंद्र में रुकेंगे और कल शाम मेडारम पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम में पंचायत राज, अजय कुमार, अजित और अन्य ने भाग लिया।

शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता के अवसरों पर आज से सम्मेलन

हैदराबाद, 20 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। टीडीएफ-यूएसए के सहयोग से सीआईआई तेलंगाना 21 से 22 फरवरी के बीच द वेस्टिन, हैदराबाद में शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता के अवसरों पर सम्मेलन आयोजित किया गया है। सम्मेलन का एजेंडा उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटना है।

सम्मेलन के चर्चा के विषयों में विश्वविद्यालयों के लिए एक नए शिक्षा मॉडल का निर्माण, स्वायत्तता और लचीलेपन को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव को प्रोत्साहित करना और पाठ्यचर्या की प्रासंगिकता और रोजगार क्षमता में वृद्धि शामिल है।

बहुविषयक शिक्षा और नवाचार एवं उद्यमिता पर सत्र

महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सम्मेलन विनिर्माण क्षेत्र की बदलती धारणाओं और कौशल विकास के महत्व पर भी चर्चा होगी।

सम्मेलन में शिक्षाविद, उद्योग जगत प्रतिनिधि, सरकारी प्रतिनिधि, छात्र, शिक्षा विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय और विभिन्न प्रकार के प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं।



सुरारम स्थित परिहार परिवार द्वारा आयोजित एक शाम श्री आईमाताजी के नाम जागरण में उपस्थित जीडिमेटला सीरीय समाज अध्यक्ष मांगीलाल काग, सहसचिव प्रेम पंवार, आयोजक वजाराम-पोनीदेवी, रामलाल-मीनादेवी, मांगीलाल-पिस्तादेवी, गजाराम-मोहनीदेवी, सीताबाई, चुन्नीलाल-मोहनीदेवी, मगाराम-राधादेवी, रमेश-सुन्दरदेवी, मोहन परिहार व समाज बन्धु।



नानकरामगुडा स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर में ब्रम्होत्सव के अंतर्गत कल्याणोत्सव में उपस्थित शरद पी वित्ती, अक्षय पित्ती, अजीत गुप्ता, विनय अग्रवाल, कैलाश केडिया, सुधीर गुप्ता, दीपक गुप्ता, प्रदीप अग्रवाल, सुरेंद्र गोयल, विजयकुमार गुप्ता एवं अन्य।

हैदराबाद के आरजीआईए ने बनाया रिकॉर्ड

* एक दिन में 536 हवाई यातायात गतिविधियां
हैदराबाद, 20 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (आरजीआईए), शमशाबाद में यात्री यातायात 30 जनवरी को नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। हवाई अड्डे ने एक दिन में 536 हवाई यातायात गतिविधियों के साथ एक नया कीर्तिमान बनाया।

हवाईअड्डे ने 31 जनवरी तक 20.7 मिलियन यात्रियों के आंकड़े को पार करते हुए अपने साल-दर-साल के उच्चतम यात्री यातायात को भी हासिल किया। प्रभावशाली रूप से, हवाईअड्डे ने वित्तीय वर्ष 2024 में हर महीने लगभग 2 मिलियन यात्रियों को समायोजित किया है। हैदराबाद हवाई अड्डे के विस्तार का काम लगभग पूरा होने के बाद क्षमता को 34 मिलियन यात्रियों तक बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जनवरी में, यात्री यातायात 2,181,141 था, जो साल-दर-साल 14 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इस बीच, वित्तीय वर्ष 2024 के लिए संचयी यात्री यातायात प्रभावशाली 20,750,712 यात्रियों तक पहुंच गया, जो साल-दर-साल 21 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट में विमान गतिविधियों में मजबूत प्रदर्शन पर प्रकाश डाला गया है। जनवरी में अकेले आरजीआईए में कुल 15,054 गतिविधियां देखी गईं, जो साल-दर-साल 9 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती हैं। यह प्रदर्शन वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान लगातार बना रहा, जिसमें कुल 143,355 गतिविधियां दर्ज की गईं।

कार दुर्घटना में एक की मौत, तीन घायल

हैदराबाद, 20 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। मंगलवार को नरसिंगी में आउटर रिंग रोड पर एक कार के अनियंत्रित होकर गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य यात्री घायल हो गए। पुलिस ने आशंका जताई की लापरवाही से वाहन चलाने के कारण यह दुर्घटना हुई होगी। स्थानीय लोगों के मुताबिक, हादसा तब हुआ जब कार गच्छीबोवली से शमशाबाद की ओर जा रही थी। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया।

बाल्दिया के सफाई कर्मचारी देंगे मेडाराम जतारा में सेवा



वारंगल, 20 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। मेडाराम महाजतारा में स्वच्छता सेवाओं को बनाए रखने के लिए बाल्दिया से सफाई कर्मचारी सोमवार को रवाना हुए। इस अवसर पर शहर की महापौर श्रीमती गुड्डु सुधारानी ने मुख्यालय परिसर में कर्मचारियों की बसों को हीं डंडी दिखाई। महापौर ने कहा कि मेडाराम महाजतारा के दौरान, भक्तों की सुविधा के लिए स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने के लिए बाल्दिया से 550 स्वच्छता कार्यकर्ता, 30 जवान और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के 6 स्वच्छता निरीक्षकों को भेजने की प्रथा है। 2 सेनेटरी सुपरवाइजर, कचरा संग्रहण के लिए 30 स्वच्छ आंटी, 3 ट्रैक्टर, 1 टिपर, 1 डोजर, शहर से 1 स्वास्थ्य निरीक्षक, 5 गुरु स्वास्थ्य सहायक, इंजीनियरिंग विभाग से ईई जाएंगे। महापौर ने कहा कि स्वच्छता सेवाओं और पेयजल आपूर्ति की निगरानी के लिए विंग अधिकारी 5 दिनों के लिए वहां उपलब्ध रहेंगे, बाल्दिया से जाने वाले कर्मचारियों के लिए मेडाराम में आवास और भोजन उपलब्ध कराने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, और संबंधित खाना पकाने की सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। कार्यक्रम में अपर आयुक्त अनीसुर रशीद सी, एमएचओ डॉ. राजेश, सेनेटरी सुपरवाइजर सबैया, नरेंद्र, भास्कर सहित सेनेटरी इंस्पेक्टर, जवान एवं अन्य शामिल हुए।

एलआईसी को मिला 21,740.77 करोड़ का रिफंड

हैदराबाद, 20 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। भारतीय जीवन बीमा निगम को आयकर विभाग द्वारा 21,740.77 करोड़ रुपये का रिफंड प्राप्त हुआ है। एलआईसी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आयकर विभाग द्वारा वर्ष 2012-13, 13-14, 14-15, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 के लिए कुल रिफंड 25,464.46 करोड़ रुपये था। जिसके तहत आयकर विभाग ने 15 फरवरी को 21,740.77 करोड़ रुपये एलआईसी को दिए। बची हुई रकम प्राप्त करने के लिए एलआईसी की ओर से प्रयास चल रहे हैं।

28 को होगी जन्त राशन चावल की नीलामी

आसिफाबाद 20 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। जिले में विभिन्न कारणों से 5 एमएलएस नाकों पर भंडारित 3,373.50 क्विंटल चावल की 28 फरवरी को दोपहर 2 बजे सार्वजनिक नीलामी की जाएगी। जिला नागरिक आपूर्ति अधिकारी तारामणि ने एक बयान में कहा कि नाकों पर जन्त चावल की सार्वजनिक नीलामी की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले धैले की कीमत 21 रुपये प्रति किलोग्राम तय की गई है, केवल स्थानीय व्यापारियों और डिस्ट्रिलरीज को ही इस नीलामी में भाग लेने का मौका दिया गया है और नियमों और विनियमों को जिला नागरिक कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया गया है। चावल मिलर्स, चावल, तेल, गेहूं, चीनी के सामान का कारोबार करने वाले व्यक्ति इस नीलामी में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।

सडक दुर्घटना में मौत

निर्मल, 20 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। जिले के दिलावरपुर मंडल के उपनगर सिरागापुर गांव में एक अज्ञात व्यक्ति की किसी अज्ञात वाहन की टक्कर में मौत हो गई। यह हादसा मंगलवार को सुबह करीब 4 बजे हुआ। पुलिस के अनुसार व्यक्ति की उम्र लगभग 35 वर्ष हो सकती है साथही उसने निले रंग का शर्ट और काली जींस पैंट पहनी रखी है। पुलिसने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।



जामबाग के नगरसेवक राकेश जयसवाल ने जीएचएमसी की आम सभा बैठक में अपने डिवीजन की शिकायतों पर चर्चा की और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को जल्द निपटाने का आग्रह किया।



मेइचल सोमारपुर विलेज स्थित विश्वमंगल गौशाला में 24 फरवरी एक शाम गौमाता के नाम जागरण के लिए सीरीय समाज अध्यक्ष चोलाराम हान्बड़, सीए जसाराम बर्मा, समाज सेवी मगाराम सुथार, पुथुराज सीरीय को निमंत्रण देते हुए आयोजक हिरालाल, नारायणराम, धर्मराम, ओमदास, प्रकाशसिंह व महासचिव शक्तिराल सुथार।

‘फिर एक बार मोदी सरकार’ के संकल्प से प्रारंभ हुई विजय संकल्प यात्रा

असम के मुख्यमंत्री की उपस्थिति



निर्मल, 20 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। भारतीय जनता पार्टी द्वारा तेलंगाना में फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प के सात विजय संकल्प यात्रा प्रारम्भ हुई। जिस के तहत मंगलवार को बासर तीर्थ पर सुबह मुख्य अतिथि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और भाजपा नेताओं द्वारा पूजा की गई। जनसभा में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने तेलुगु भाषा में जनता का अभिवादन करते हुए कहा कि आज से पार्टी ने विजय संकल्प दिवस और विजय संकल्प यात्रा की शुरुवात की है। हमारे कार्यकर्ता यात्रा में 5500 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। 116 तालुका में जाएंगे 106 जन सभा आयोजित होगी और 102 मंडल रोड शो होंगे। सरमा ने आगे कहा कि हालही में भारत रत्न की घोषणा की गई जिसमे कांग्रेस नेता पीवी नरसिम्हा राव जी को सम्मानित किया गया लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह कार्य नहीं किया। आदिलाबाद के विधान सभा चुनाव में 4 विधायक की जित हुई है जिसके लिए उन्होंने जिला वासियों को धन्यवाद दिए। हालही में हुए 4 प्रदेश के चुनाव

में छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान में हमने जित हासिल की पर तेलंगाना में हार का सामना करना पडा। मगर यहाँ पिछली बार से भी दोगुना परिणाम हमें मिला। पिछली बार हमारा वोट शेयर 6.8% हुआ इस बार 13.9% हुआ हमारे 2 विधायक थे आज तेलंगाना में 8 विधायक हैं और भविष्य में 80 विधायक करेंगे ये मैं विश्वास करता हु। तेलंगाना में जब जब चुनाव हुआ कांग्रेस पार्टी और बीआरएस पार्टी ये बोलते है बीआरएस और भाजपा अलायन्स होगा पर मैं आप लोगों से बोलना चाहता हुं भाजपा अपने दम पे तेलंगाना में जीतेगी।

आगे उन्होंने कहा आदिलाबाद ने कुमरमभिम के नेतृत्व में रजाकारसे लड़ाई लड़ी है। लेकिन रजाकार खतम नहीं हुआ नया नया रजाकार आज भी जिन्दा है इन्ही रजाकार लोगों को हमें हारना है। ऐसी ही रजाकार निशानी सूची में थी जिसका नाम बाबरी था लेकिन अभी अभी मोदीजीका नेतृत्व में वो नाम खत्म हुआ और भगवान राम का बच्चा मंदिर निर्माण किया गया। आज पूरा देश में उत्साह उमंग है 500 साल हिन्दुओं ने

इंतजार किया कब रामलला का मंदिर बनेगा लेकिन कांग्रेसियों ने मंदिर बनने नहीं दिया था। वर्षों पुरानी परंपरा है हिन्दुओं को जो दुबाने की कोशिश करता है वह खुद दब जाते है। उन्होंने कहा हमारा देश दसवां इकॉनमी था आज मोदी के नेतृत्व में हमारा देश दुनिया का पांचवा इकॉनमी देश बन गया है, आगे देश तीसरे स्थान पर होगा।

हेमंत बिस्वा सरमा आगे बोले की, तेलंगाना में कांग्रेस ने एक भी वादा पूरा नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक एक करके सभी वादे पूरे किये। कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में गई बोले हम 5 लाख नौकरी की व्यवस्था करेंगे आज हिमाचल का काँग्रेस का विधायक पृष्ठ रहा है 5 लाख नौकरी का वादा कहा गया? फिर वह कर्नाटक में गए और वहां पर पूरा झूट का पिटारा खोला, एक भी वादा पूरा नहीं किया। फिर हैदराबाद में आए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने चुनाव से पहले वादे किए पर एक भी पूरा नहीं किया है, यह झूटसे बनी सरकार है। इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य तथा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय नेता डॉ लक्ष्मण, मंत्री सुबेन्द्रमोहन, अंजी कुमार रेड्डी, पूर्व ससद सोयम बापूराव, निर्मल विधायक ऐलेटी महेश्वर रेड्डी, विधायक पायल शंकर, अ ल ज अ ए र श्री ि न वा स , राउलारामनाथ, अय्यननारी भूषैया, सुहासिनी रेड्डी सहित अन्य उपस्थित रहे।

कांग्रेस ने दीपादास मुंशी के खिलाफ टिप्पणी के लिए भाजपा से बिना शर्त माफी की मांग की

हैदराबाद, 20 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि भाजपा के पूर्व विधायक एनवीवीएस प्रभाकर एआईसीसी तेलंगाना प्रभारी दीपादास मुंशी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए बिना शर्त माफी मांगें। एक न्यूज चैनल की बहस में बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि दीपादास मुंशी को तोहफे में बेंज कार मिली थी और उनके पास इसके सबूत हैं। टिप्पणियों की निंदा करते हुए, कांग्रेस प्रवक्ता अदाकी दयाकर ने दीपादास मुंशी के खिलाफ एनवीएसएस प्रभाकर की टिप्पणियों को दिवालियापन का सबूत बताया। यह कहते हुए कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और झूठ पर टिकी है, टीपीसीसी अभियान समिति के अध्यक्ष मधु यशकी गौड़ ने कहा कि एनवीएसएस प्रभाकर आपाणी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए चचार पामे के लिए सनसनीखेज टिप्पणियां कर रहे हैं।

प्रथम पृष्ठ का शेव भाग...

कोस्ट गार्ड में ...

कोर्ट ने कहा, कोस्ट गार्ड के प्रति सरकार का उदासीन रवैया क्यों है? जब आर्मी और नेवी महिला अधिकारियों के लिए परमानेंट कमीशन पॉलिसी लागू कर चुकी है तो कोस्ट गार्ड इससे अलग क्यों? केंद्र सरकार आर्मी और नेवी की तरह कोस्ट गार्ड की महिलाओं को पुरुषों के बराबर क्यों नहीं मान सकती।

दरअसल, इंडियन कोस्ट गार्ड में अफसर प्रियंका त्यागी ने कोस्ट गार्ड में महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस पर सुनवाई की।

दिल्ली हाईकोर्ट का....

कई नि:संतान कपल और एक बच्चे वाले माता-पिता सामान्य बच्चे को गोद लेते हैं। ऐसे में विकलांग बच्चे को गोद लेने की संभावना बहुत कम रहती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 2022 में गोद लेने के नियमों में बदलाव किया गया है। दो या दो से ज्यादा बच्चों वाले माता-पिता केवल विकलांग बच्चे ही गोद ले सकते हैं, जब तक कि बच्चा रिश्तेदार या सौतेला बच्चा न हो।

अनाथ बच्चों की तीन कैटेगरी होती हैं, हमारे देश में बच्चा गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया बेहद लंबी और कठोर है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत जब एडमिनिस्ट्रेशन या सरकारी एजेंसी को कोई बच्चा मिलता है तो उसे अगले 24 घंटे के अंदर जिला बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के सामने पेश किया जाता है। इसके बाद बाल कल्याण

संदेशखाली पर बंगाल...

डिवीजन बेंच ने उन्हें जाने की इजाजत देते हुए शर्त रखी कि शुभेद के साथ सिर्फ उनकी सिक्सोर्टी के लोग ही हिंसा प्रभावित इलाके में जाएंगे। हाईकोर्ट की सिल बेंच ने सोमवार को उन्हें संदेशखाली जाने की इजाजत दी थी। इसके खिलाफ बंगाल सरकार डिवीजन बेंच गई थी।

डिवीजन बेंच में बंगाल सरकार की दलील और कोर्ट के जवाब : बंगाल सरकार : अर्टांनी जनरल किशोर दत्ता ने डिवीजन बेंच के सामने कहा, सुवेद अधिकारी संदेशखाली जा रहे हैं। अब वहां हालात नॉर्मल हो रहे हैं, अब वहां जाकर अशांति फैलाने की क्या जरूरत है?

शुभेद के वकील : हम वहां कोई मीटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। डिवीजन बेंच : आप वहां जा सकते हैं, लेकिन आपके सपोर्टर्स का क्या होगा? आप चुने हुए विधायक हैं। आप पूरे राज्य में घूम सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, जो धारा 144 वाले इलाके में आपके साथ जा सकते हैं।

इंडिया गठबंधन की ओर से चंडीगढ़ का मेयर बनने पर बहुत बहुत बधाई। ये केवल भारतीय जनतंत्र और माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से संभव हुआ। हमें किसी भी हालत में अपने जनतंत्र और स्वायत्त संस्थाओं की निष्पक्षता को बचाकर रखना है। चंडीगढ़ काँग्रेस के अध्यक्ष एचएस लकी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 8 मतपत्रों को वैध घोषित करने का निर्देश देना हमारे लिए एक स्पष्ट जीत है। हम बेहद आभारी हैं कि हम सभी के साथ न्याय हुआ। जब यह कुकृत्य हुआ, तो यह एक ऐसी स्थिति थी जहां चंडीगढ़ के लोगों को एक अंधेरे कमरे में धकेल दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए वह मोमबत्ती बन गया, वह रोशनी बना जिसकी हम सभी को जरूरत थी। ये आठ वोट हमारे उम्मीदवार के पक्ष में थे।

स्वतंत्र वार्ता

Email :
svaarthha2006@gmail.com
svaarthha@rediffmail.com
svaarthha2008@yahoo.com

Epaper :
epaper.swatantravaartha.com

For Advertisement :
swadds1@gmail.com

